[illegible]

177 | I

न: थ्वा सकयानाम: थ्व ह्नाङ्गु थ्यय॥ ह्मान अलसा: थ्व ङ्गुह्रु थ्यय: उमा: उमानं जा मद्रु याकाव सम॥ नामद्रु नाप सं: थ
वं सिथ्व ह्नाङ्गु वा सक: थ्यास्ता उुमान वहिनाजगस: निस्तुयन ह्रुहृगान कव॥ निस्तुयनं मस मृरुत्वागयाव कवे: निस्तुय
उथ थिन कस: निस्तुयनं स्मिगकाजगसं॥ थ्वमनायुकाव स्म: पास्तदस: पुकृयकुयावन्दु मा थ्वंवंयदस: पुनर्वाय: ज्ञासद
दनस्यां सिगुरु यागस जह्मानाजा: सिपि: विद्या: व्याकर्ण: काय: काय: जसंकास: कनु षद्दू थाक्रुं यथययावकवं॥ मस: भुष
विद्या ल्प्रादिं: सकनांपा वांगनदसं॥ वहूनहसव नाणीयिं: विवाह याना जा: दान धर्म्मम्रा दिं: दान याना जा: वाउिस याणी
जावसकीदयानाजा: ल्प्रानन्दुदसं थवंसि: स्तुवन्धु वाजाम्रा थद याजा॥ कीर्त्ति थ्व नित्रियदयाजा॥ वाजाया: वाउनाग्या निवाकाद

[illegible] | 177 | I

याउ: इक्ष्वाकु: कुमारयात सिंहासनसमयाउ : थउमतुकनं : सूर्य्यकाउ : रामस लक्ष्मण वियाउ राजा । लेशकवियाउ राजा
सासं ॥ ० ॥ थनंलि : सूर्य्यवंश राजानं आह्लादय कनं ॥ राजपुत्र त्रिशंकुस इच्छायाया : सारस्यइं ला : उत्रापनं ऋतुमीत्रमया
प्रतावनं : थेंकपूत्र यात्र वाको नवनं सगनिसाग : परन्तु नं नाम : शुन्नःशेफ कुमार धर्म्म : ध्यान धासेरे ॥ उमो नेजा नहू
उयानि मिलिन । परन्तु त्रिशंकुरवपुका : धर्म्म विरुल नखवकन ॥ राजपुत्र : महाराजा ऋतुमीत्रन मालस मन कुजाग्य : सामर्थ
र्थ्य दनसां । नेपकुसं नसमर्थ्यर्द्द लसांगुरुकयकुंउयासना याउ : धर्म्म अर्थ काममार्ग : स्वो फिनूयी : उग्र विश्वामित्रयात्र ताव
न : छिडिसदृस थिनह्मा : पथांगूत्रमतउवरसीगावमर ॥ पूत्रकार्य्ययात्र नूसावगिन : कामनायाउ : थगुविश्व न ४
चूपहालसं यंकन्याम यूज ॥ उमपूरुष राजासके ॥ कन्याहानराजायनिस कुउ राउआसं : महाबाली नं थूनू खवरलेया
उ : महाधंदाकयाउ : कवरजउत्तमीत्रुग : उपोगनायाक अमाघपाभनामसूमरय । : ममपुत्राय कन्यादायनां ॥ थूति
कायनकायाउ तुमदनं ॥ पूर्नर्वीव कन्याहानकस काग : भसन मयाविषयस : कन्यकूउ मयानगवस : मंडकन्या
उयाककविमालेयान ॥ हामहाराउ : नहि : जसउनापन्त्रायूगू राजाह यमा धर्म्म ॥ अग्निवीनविया उक्सलं : हामह
राउ : कानीद नया : इक्ष्वाकुराजापूत्र : वीरदूमहाराजायान चूलयालया ॥ दिव्यस्त्रुत्रिविकन्या हानउयायाप्रसन्नह
यमास : परन्तु वीरदूतरानाचक्रवर्त्तिः महावीर महापराक्रमी प्रतापनमहानउमन ॥ हाम्वदउमहागुलदउक

सयालयाके: कुयामयाउ: प्रथमविवाहयायसिमि। लिनं प्रार्थनायाउं हल: गन्धर्वाला या: गृहस: अष्ट ब्रह्मचर्य:
सफेवल: थ्वमनं ब्रह्मसयालयामहाराज्य: विलम्बं थवनं जुधन॥ ॥कालिदमयूना हमि: प्रसन्न हयमास: विसं
वमगउ: ॥थ्वमरवंनाउ॥ मदुककराजान: रासयाउवीरकूमराजा॥ विक्रूयहलसा महावीर: चक्रवर्ति खजु १३
थ्वउसेवंध्वयायसीनथ्वकामासयाउक्षस॥ विक्रूयहलसांकन्यादानविक्रयहल॥ वीरकूमराजाविक्राकिहनि: थ्वकंथसं
ति: थ्वनंविमलियानं॥ हमहाराज: जिमिस्यनं खवरविक्रयाउख्याय॥ यनकु विक्रायजामथ मविख्याकेसोरि: ख्यान
थवसा॥ चक्रवर्तिराजा॥ हाजअसंख्यउसनामजनवीताङ्याय॥ यनकु चक्रवर्तिराजायान: थउवाअकनमगउ॥ दून

लक्ष्मीयाकृष्टिनगुंसुर याथाकूमरु: थ्वमनयूवाह्निनआदिस याकंनिसं कालिमानवानकसथायभासंलि॥ ॥मदुक
राजानमथाकुथकं॥ ज्ञाविधाउ: महाराजाजीया: खवसविद्याउहल॥ महारानीजुलिन्तु: वसमायाउ: पूर्वाह्निनप्र
रुगि: कालिनसकस मति हवन्हियासनयाव सहिनंसव किमिनथ वयायक नानाप्रकारयागीन वायनस सख्विउ
नश्रुणादि: राजायानसदमनाव काजासनसकनोष्ठायाउहल: थनमदुकराजान: अभिहर्षमानयानाउ: स्वादिन स्वस
र: स्ववसा: कुलायाव थ्वंके कन्यादानयानं॥ नानाप्रकारनं पानयन वसनं नियकाउस्वदर्मनानानीनाम: कन्यापूर्वाह्निन
या हलसस उज्ञानं पूर्वाह्निनं: वीरकूमस्वयस्यपहीस्वमसि स्वदर्मनाख्यकंथुलिदिव्य स्वन्दुवीरयाउक्षीसं: स्वदर्मनाकं

न्याऱ्हस पास स्वन वीनं द्व भमहाराजाया देवी हृ सं, थ्वकं बाख्व याना उ: कन्यायात काने: स्वन, किसि रथ धन रत्न देश आ
दिं ॥ थ्व श्रय याना उ: मडक राजानं मान्य याना, मायका विधिपूर्वनका उ ॥ वला कया उ अस्व दर्शनि कन्यास्वब र्हिया स्वनयात
स गया ॥ नाना वाद्य, नाना गीत नृत्य क, विष्ठ नाना जात्रा मंगल सिं धुन जात्रा याउ अरु छानयात नं दर्भ प्रदक्षि आजात्रा याना उ
थे ॥ ॥ मडुराजानं, भव किसि रथ, वयायक थ्वचराति, स्वखिजन पनक, सिवय कसनं सा म स्वादिनं वियाउय
स वडास: मायका कायरयाउ विराउ सं ॥ थनं लिका भिदमयास मीपस अनाउ, पूर्वा दिशनं महाराजा मा ह्रावा नास क १४
विमति याना न्हस पासया प्रताप नं मडक राजाया कन्या स्व दर्शनाहा नाह्य धुन उडान स थ्वनं स्वर्ग याज पसवा ह्न्याथं

अनकव ह्य धुन थ थिंक स्व दर्शि कन्याय थासं मह दु ज्वा उ कन्या दान याय संविक्का ह्नं ॥ थनं लि महराजानं न श्रवं सा पूर्वा दिशय
त्यायमास कन श्रवसा महाराजाया स्वान कन्नम कीउ, थ्व कन्याय मजीउ कन्या ह्नं सं स्व दुर्न व्य, विरूप राजा खना उवि
आगह यिउ ॥ थ्व नमव दु गुलि यायमास श्रवस्वं लि कन्यादान काय थ्वसत्त्वि नह्रुलि याय, महराजानं श्रवसं दास: थनं लि
श्वि नस्वय वसास, नानाप्रकारं मंगल स्वधूर्म ध्वस्व दुगु भसिं द्व वजा जात्रा दिया ना उ, उद्यानं नं दर्श ह्न क द याउ रावे उ ह्नस
प्रय भया नं ॥ थ्व सिंजावा लीनं खना उ हर्ष वि स्मय याय नं, स्व दु नव कन्याम खना उ हर्ष दृहसं: पूर्व विरूप खना उ भक: थ
नं लि पूर्वा दिशन उ ह्नं जा दि ॥ धुन का उ वरात्रिया स्वयह वं लि उ ह्न की ल सयस, पह्नयाउ कन्यादान विसा उ ह्न याय स्विव

लसमद्‌ः कृत कउनसवात्रिसमगया, जु जिवयमहू, सिद्धासमयस ःप्रकाकननः महावाजावीवकूमवानाउः कन्यादानयानम
हावाजा॥ हृ नासननयूलाहिनयादमःस्नन किगि वथ ख्वनाने, वस्नसकालं कू बू वासा हागम ब्रह्म निजावनुसकनं
वाक्यकयाहदग्निस्नाविवयाउ थउक्ताथसउया॥ थन र जिलाग्यः ववान वाजायायमद्दुधकं ःववययागं॥ जिलाग्यनं ःथिथिउ
वीसिसमानः कन्यावायथुनंहावयाउ रूषमानयागं, थनासि, ख्वसिन्दुःमहावाजिनं स्वदर्गनाकन्यावानादसीं॥ गथिंगूथ
यसाकथासः श्रीबुद्धधर्म्मसंघयामहृलिवासंगयाद्दुः ख्वकुमीव्रनयापुरा वंमसकजानद्दुउमाधसिवाजायाकथावासमन
याद्दुः ववनथूनानयास्व वल्हयारवानासिदयारवावद्दु ख्वलकुकामस ःसिव दवासा॥ चक्कु खिनकूजुसिसगन्धधूपनसयन
यागेनोया, सस्वाकःथथिंगू काथसद्दुनवानाउरवासेगोनयानथउःमममदयकाउयिहांउयाउकूनमसहावाजा थनकानं॥
स्वथहसना मजुसिद्धामहावाक्षीःथमनं उनाउस्वदर्गनाहाविवाथउाकथासवानायनं॥ थनंसिसखीउनयिंगवयनयाद
उानवःहाथियावानिथमनसववयायानं ःसखीउनप्रकाकेमयाकूमहावाजानं ःस्वदर्गनावानीयानदर्गनिमयाकू ःदिनसं
वाउसंमनमदयकु ख्वथकासस्यनयाग॥ थमप्रकायनवाक्किदस्वयाउसंसि ःस्वदर्गनावानीयासननससंदस्वउसं।
॥ प्रहृसहावाजायादर्गनियायमद्दुःहृनमनननास्वयंमननं॥ स्व हृउकूकावन, किंगोजाहानयानिससेकेरवावस्वयद्दु॥
उजक थउप्रहृयारवालस्वयमद्दुः हाहाद्दुः स्वहाहाजिज न्मथिकाव, जिमिरवायाहोस्वगधजिससिवयथः समाननयानं 18

या ब्रु प्रथाजन म द्धुः थथ्येहानयाजा ख्वान रवित काडा समान मयाथैस्यखानं ॥ थनक्लिंदयानीनं ध्याव हमह वानी । निहयाथं
समानयाडा हासि वामयद्व थासयाडा स्वयाजन मद्वहनं धासन्ह विधवामयू ॥ मह्व याजा प्रदयाक्ष मंग नयायमनजा ः दलि
वानर्सस्थावा याडा धासं क्ति प्रदवं रवाससम कं प्रदयाद्वो सस्वयमद्व ः थनियाजाजान सांजिंप्रदमासियानिः थयाडा । संस्थावा ११
याडा ः मस्वद्ध नं द्धि संथनं सिमाद्ध नं धासं हारसियानी ः स्नामथ्यं दमासवायमज ः न कानिनिडाडा रवांसिन ः स्नामथ्यं रवद्ध
यसे स्थामद्वा ः सखिज नयानिसन ः सिरसाउय हासयाद्ध निसेंजाथायिमथुता ः धनियाकान समस्वसेंनु लस्व हाडा द्ध
वमज ः समानयानाडाज्ज्वजसमिखायानादर्गद्वयाडासा क्वेक्ष्वि । थ्यंदनंकाडाह्ह डाना ः सदकायमज ः मद्धु साप्र ॥ थनमाद्ध
ऊ १

यारवद्ध नाउस्नामिसेंजाथायाडासमानयामं ः थनंतिधुतुसिकासमसः वागिसद्धुनमहायाजास्वामिडा ॥ वस्तविदास ः
स्नामिद्धवसागंसूवन ः दंनप्र हासनरवप्रह्रायजादिंवसधीयाथूनकाडा । थिथिंयनस्वयवकुयस्वयग्र ष्ठकाहसं ॥ द्धुलवाजा
यामनसं स्वस्थाजसनं ॥ वासीनंसहयायरै मेयाथा मध्याः गुप्रदमहावाजाधिवाज स्नानि थ्थाद्वयाडा द्धसयासस कं
गाविमानियाय ः स्नवसवमाययायमासनिसें स्थाथयमज ॥ वनोध न्याससमावाची धकं वीनिसस्वासनयाद ॥ वनिद्धीजसमिसाध
म्मायमहाजागुवीद्धसंसिसद्धीद्धया ॥ हामहावाजः थनज निजिंद्धायथाथिंदखसागथिथिंयवस्यवस्वद्धनंद्धि सासाद्वोस
स्वतुमद्ध ः द्धि ः क्वि ः सिक्षकांसं थ्यं स्नु ह्रवमद्ध ः द्वस्वामिथिथिंखासस्वयदनसांदुगंद्धिं वसस्वखक्ष्यं ॥ सिनदप्रीक्ति याप्त
न १

र्वसजुलथि थिं त्वासस्यसंवं धयाय पूर्वसजुल ॥ थि थिं रवक्लय ॥ यवकु हम्सवाजामनमदूकथम : लक्ष्मीनवासमयाकं : हा
हाविउलमधि काव । वानङ्गिनंपूवू मयाद र्मनमदू थाथिंजोवनस : स्वम्बकासननवकवासयानाथ्यं कलधासस्यंकि त्वासस्वयू
अ उफनथि थिंस्वय अध्वासयाक ॥ हाहाप्रहजिनदर्मनिविज पूर्वल वडुमा थिं । वक्रनविर्म्मसकलपालयारवाव ॥ हाहां गर्वधस १८
सदर्मनयायहाहार्दव : कनानदू : खविया सकदेमहस्वसागस यरव याखासस्वयमदू ॥ दक्कमस्वंवा र्थदूसं ॥ थमनाप्रकावन
: हाहा कालयाठ धासकालनयावाजाया कलनं निद्रा उयका : स्वम्ब कंधानं । सगिमूदू पूनवाव : वाजामकविमानियाव : लम
हावाजाप्रहस्वामि । क्लिगवयाउलवा दूंमदूकवधावयाजलउस : जिधमा दूलमउनि ॥ दूर्धमदू : थयाका वसदूमथ्यंरवउ

जिमरु नाधा ससामनदयकमा सदर्मनिवियमानधकंधम्यं । सिनाजोम्ना स्नादू सं : लाप्रीयसदु विजिप्रानकवनलकधर्म्मि
कम्निसमस्क क । यवउ संसानससहिनयाकक्ष : मामैंको । जिवासरवथ ससवथास्वर्गपाहनदू सं मामयापूकुखान : जिंनाक्ष
नानाउस्वजायियाना : थनन । मामयाकेहाकंमदू ॥ थुकियाकोलसमामैजकेंसियिउ : मामयो हाकविनाकार्यमनउ
धया । हुसउायक सीं । वानीयाहूवमउासमहासंदहू याउ धान ॥ थनंलिसकि मूदू महावाजो नुकांनमामयाकवूलाकरव
कव हुमाकायहूयाउ धकें धंदाकावं ॥ थनंलिसदाथ्यंहवि वानाति उस्यं । सि : हूसमउालस्वासस्वयाथासं : हूपूमाहविवा
वानि । हूसमदूत्वासः यनमकन । कानकूदूसं : वक्रवालिवाजाया वाली हयाक्रूदू : खकूधंदाकूसविनांननसत्वांमाखिउ
का । सा ।

कमनडाःस्वक्लाउश्रमनकूसमदनधकेॐमकप्रकावसंधसयालिः मिस्वासखोतेनयाउधलं॥ तामाहृगथावैडं
मतियायः मदपूनुमयास्वोसस्वयहूनिर्लज्ञामहूउः थउपूनुमया, स्वोसस्वयधयांनिसज्ञाक्रेजिहूलः थथिंवकुव
लिबाजा याक्वथासमनकूपांनमहूः कूलाग्य, कूबाजाः थयाकावनकू, प्रसयास्वोसमस्वस्यंस क्वामसरूयाहमाहृधस्यं
सिमाहृक्वनांनिनेधलं॥ हतलिबाबानीः ज्वामथांहनासवायक्वाय, कूयायडि जिसकूला वावथकव। जिनंहनासवायाउः १८
जिनमाहृयाकविमनियाना; माहृनज्ञाज्ञादनः हतविवा कूनंमवाम्रः मदयके श्रीपूनुमडाः स्वोसस्वयमनडा॥
क्वानधासमाः काम योग वधयहृयाउनाम्रविवावमदयाउः पचवकूया बसासंह यिप्रजा साक्याः पीताहृय, थन

नर्थीहनाविनयहृसौलिः थिथिंयवस्यवंः स्वउधवंः धयाउर्सजोवाओयो कूनप्रह, वीसकू मधूप्रदयांनिनिः जिनप्र
हयास्वोसस्वया; हतलिबावानीः थनियादिनस, कूगथहनासवाया उपहृयादिनसः जिहनासवायाः सक्वानक्वानाया
नाउ॥ ॥ कूपूमिउयासनायानाउः सक्वानयांश्रीपूनुमयांस्वोसस्वयानायं, कूयांसाकहनासनं, धंदाकायमन, पूत्रा
; थमक्वयाउः मानिनंना सपसंगथींगृहकूसा वासहनस्वयं, मननाः र्थीहनाविक्वाहूलः प्रनिनमहूयाउः महाधंद
नेः कमूनंसाख्विउननायसाउंनो, धलः हसखिकूसमनयानायनायमकू, महाकंजासथसियाक्वाउन सप्रह्याख्वो
सस्वमधूनिः थहृः स्वहृयाकवाय; हसाखिविंः जिमिर्नयंक्ववंससंः महावाजाया स्वोनस्वयधूनसाः माथिंहनजग

मा

थेथाव जिमकन्तेमा न ध्यसंचालि सःविनं हनाहनं ध्यलं : हवा नीउध नसं खना : दैमेना : हनासचायमकस्वयाकध्यय
म मध याडाउन : गुलिसिं कानमस्कुनि थ्वहका थदानं शाउ नमथासंगदिं चिहुयाडा : सहयायमरुयाउ : मोहयाकक्ष
नं । रा म्ही : कवानसपूडप्रहयादर्शनिविडा । मविलसाजवासंग्रा सलागयायक्ष्यसंचालि : माउनक्ष्यनं ॥ रानानीरलिवा : स
नि थ्वहका हलसा : थनिंथ्व यादिनसमहाजादर्शनि भालासविस्काकाउदर्शनिवियकलकु नमकन ॥ गथेक्ष्यनसावकाउ १८
सेंगस्वयदर्शनयाय थ्यं ॥ सनिपुहु : अलिस्वायानींपुथाहिन मस्त्रीसकं सुथानंहलाकुरवसकनांकना : पुथाहिनं क्ष्यलं : रा
महानानीः रामसितथ्यंयहयाउसकवह्नमानयामथ्यायानसाकछुस्तुह्नमानसमक्ष्मयाडामहावाजानायंथाहाउक्तुठव

काउमयथासवह्नसादिसंयुकयाहाउदर्शनिविय ॥ कलसपालसंस्वउधकं थ्वन्तुहलमह्नमानयानकउधयाथ्वन्तुह्नम
ह्नमानह्नउसनया : वीनह्नमवाजालिउनकुजानकाउहसनह्नमासप्रहलिंपुथाहिन : मस्त्रिज्जमासः कतिदानसकं
स्वंमयानहयाउदर्शनि भालासथावींनामहावानीरलिवानानीयान कनं ॥ स्वउरपुनाकनपुरस्वयामहावाजायादर्श
नयाउध्यलहवाउसवनं : थकवाजा : थयानिवाजह्नमानः ॥ थयानिमस्त्रि : पुवादिलप्रहलिंसकलथ्वयाउवामसंम
यकाउकुप्रहंनक्ष्मस्वयाउ ॥ हिलिज्जनिस्ता नापुमहाविह्नय ॥ यवमसंवयानदिथ्वं रथनाथिंकु : सलासमहा
पुथायह्नहिविह्नय ॥ वाजमहानायंथिकानधयाउ : उल्कावविथाउ । निंदायानाउ : माहयाकक्ष्यनंसामाहनाथिंठव

स्वन्तु नपु स्व ब हृया का यलस उिम नम छ्‌ स्मा वा तदर्शन यायधुन, जाउ कू गा र्थ हृ ल्हिउ स्मस्वार स्यहलं ; लाजा हकाम
द वे स्म मा न थाथि स्मपू ब्लूमना ना ॥ यवं न्तु रूना विमनि याय ; थ वा उस लासरू उठना वा क्षरू क्ष मा त्रजा नि वान मवाका वि
व्यूपसला ना यं श्रूला ला थ क्म रू क्म सला सन यजका ग धोवा यापू वाजा, स्या वा म थउाय न पु न क याल ; लामाहृ थ रू क्म द म
वा हिनि नय क्मा ला ; न वा उ हृ तसन यमन, मवन रू गुरु न कानि उा । म हा या नी ना । हृ ला नि क्ष ना नी ज्ञाम रव कृ यगुजाग
क्म न थाग सा, सक स्या नं मा स्य याद ं न या क्ष सकन म न्तिु पानि न मत्रु । वि या उा म्ह था यया यृ क्ष मह प्रा ह्म म हा वी न यतुव स्हि
क वा वि यं या वां ग न हृ ज क्ष व या गे न हृं पवा उामिदा ना, सा क या न ना या क थ या हृ हिं थ का, वा क्ष स उ य हृ या अ स क न म १०

व वा जा य नि स्य रुउ ना या का वा नं हृ वा नि वा हृ न्यू य हृ पा का य म न्यू थ या गु न ग जा थं सक स्य नं गु स मा न यया ग न्यू य मा
न यस या क ; गु ला हि न हृ, स ना म हृ न्यू य हृ न मां मा न्य म या क ; थ ग न गू न म हा न ह्ल ग डा ध कें ला व या निं दा याय म गडि
जि स्न न मा न्य या य मा व, थ ग रव हृ ना उा ग सि वा ना नी या म न न सं द हृ, ज्ञा थूर्या, हृ ला वा न, म न ब्या य म हृ थ थि क्ष या क व मा
व क स उि उा ॥ थ ज्ञू न रव न ला व पा उा वा त्रिम म य स स्वा मि म हा वा जा या क वि मा नि या ना ज्ञ य य ग्र हृ म हा ना उ थ थिं नि या
दि न स हू ल पा स या न्यू य द र्श नि याय धू न, ज्ञा नि हृ र्ष हृ, सं य वं तु क्ष व उ न क्ष हृ क्ष म हा वि न्यू प थ स हृ व स, न य म क, म व
श्र म स क्षा वि या कं उा पा व ना या ठं नि उा स ला या म हा हृ स्वि न ; हृ ल पा स ग थे र्ल क्षा म वा या ; उिं का रव न उा गु हृ ला व वि या

स्वाल सर्वनयं स्कान्ता। र्यावायादृ, थ्वकया गीयारव कनाउमहाया जादृवृं। क्रिवाक्षालं। हर्षिय स्तनुर्भनाः सर्व आसियान निंदाय
यमनथगुत्रिवार्क्ष नु व्वर्यी प्राणसनीयसमस्तं कुत्रक्षावित्र यादृका: थ्वमनं। जेंरा वयाउमान्य याथमान, थ्वमठनाउवानी
सकाय हउ। सामिसूद्धमहावाजांमामयाकक्षानं: हमामसूदर्भनायाखोवस्वयष्ठकाहल: नादनमरवनाक्षसां। लिमामश्र्र
हादनस्वयमन ष्ठ स्कादसां। लिखवसवसकन॥ हगासवायमम। थनं। लिस्द्धयादिनसस्वदर्भनावानीमाहावानीसक्क विमनि
याना सामाहृ श्रूकिउदासहसमक्रनापृवसनयाससस्तगनंउछा नसं। क्लिनसउन॥ श्रा हा प्रसन्न हयमान: कृपादकसा: केलप
लां विक्का यमानवकं क्षसां। लि। माहृ नक्षानं। लिंस्का २ धर्क कड्सर्नकायपृनाउछा नसप्तिंकयाव कस्वयपूमाधयाउ॥ उपानयाव २१

यायधनपृ स्वसिसउनना कृसउयायाथ्पूनी क्रहायनयावहयाववसस्तग्रीसाकम्बनयानामकूसं कामाकुजसवाउसनानाउ॥ यम
नंयपृथुत्रि क्काव्वानंधनीरपवमम्बनयाउयदमनंजिउक्षावहसं॥ थ्वमकावससयस्वानकायमहया, हामाहक्रमायाउ क्षस्य
सिमहावानीमाहं क्रिवाउवानं। स्वनर्वावद्धकयादिनसक्रगुपावयनिहानक्राउसहयागृस्वयाउमाहृयाकविमनयाप
॥ हामाहृश्रागुवनस:उंयमा, स्वयष्ठक्रादस श्राह्वावियमावउिमधकक्षावा॥ माहृनंश्रा हादयकसं॥ कद्धसक्रायपुनाक्षायं
॥ याउंथवनासियाउ: श्रागुवनं, क्रपाउनाउ, मावयपत्र यो धेगूस्वयमसांकिकाउसस्वाउवानं॥ थनं। लिस्द्धदर्भनावानी: थ्य(
नाउ। श्रागुवनेदूहांउनाउ: अंयमा स्वयाउ॥ श्रायक्तउनयानाउ॥ विश्रमयानाउ: हृनंजंपस्वयाउ: अनयपक्षयालयन

खायस्तावयाअ:अञावसस्:। विस्नूरूपपूजूवअयाअ:। हूंकाव जहावाअ।। ञ्ञा। सिंगन:। ञूंवनचूयान्नयाअ : नन्नुमर्दनयानं:। विम
खयानाअ:। कृकृ रनकाअ, । विसंवनं:। स्नूनावानं।। थनंसिस्ह्व दनिना नानी:। ह्नानाअमूस्नाह्नौयायानं।। सखिवियिंसं वाधवि
याअ। ञ्ञाप्तुयिनाव विस्यअनं सहा नानीधीर्ध्वयायपास्धकें:। हीही ञ्ञाप्तुयि नावनजिनपसह्नुनाअ:। कृकृ रनकाअस्यायपनन।। २५
शिं ह्नासपसहृया:। हस्तवीजनं नवीवसस्:। ञूसंनस्रुखजाहृ:। ञ्ञाअवानमयअनूवाधकें खननसदनाअ अासं।। थनंसिना
प्रियास्मय:। महायाजांहनं:। ञयप्रियसहनुनौनना:। ञाप्तवनयासमवाचगाथेपनतुंगूसिनयाअयाधास्मसि। नाजिनधासृना
कनयाधासं।। हाप्रहमहावाअ:। गनञ्जंयनय:। गनकामासास्वय। ञ्ञाप्तुयिनावअयाअविसंअया।। हामहावाअ:। कृसपासयाक

उहनञ्ञ।। उद्धानख्याक।। ञ्ञाप्तुयिनाव।। थनेंखेसउद्ध कियथंवान:। ञजिह्वानापू।। ।ञ्ञार्य्यावसा। किनव्वनयाप्तुनादंजक
उद्धानहृस:। गवंवसंगनंअञनमनधयाअ। निद्राकृसअयकसं।। गसिकिकासस्कूदूयादिनस।। सय किसि:। वथयासं ख्यायाक:
गुलमहिमायाक।। हनाअ।। यानीहूयामनस।। थकाहृसे:। हामाहृ:। किसि ब्वयथकाहृस।। माहनंथावं:। कहूसकाय:। खअ।। कि
सिमागनसं। किसियानजसकासं जियकाअ।। महायाजा कृयांअनाअ। किसिमागहसहया।। किसिगयाअवानं:। सहर्षनायानीस
खीजनसमन:। नयासयाना:। हकिनासासअयाअखनं:। पर्वसमान। किसिखयाअधानं।। थकनाजेगअ:। थकसमसगअ:। थक
खलगअ।। थक थकयोदि किसियानामहनो। यनाकुमहनाअ। किसिनखीहसं।। वानीयानखननं। सवामयान:। मागनयानेस

स्याम मयाक॥ थ्व प्रकाव लं कायनं विहां आयाव लस: विरूपमामं गगं लिआ गुआयाआ: मानीयागाथा मलं किसिया। मदनं किवकोआ

विसं॥ मानी नम थायाआनं: महामानीया कथालं: हमाह: किसिमाग्व नलक लनं मानं ययाक: विरूपक्ष लं मानमयाल्कमान

यांहलस॥ थ्वनं विरूपक्षं: किसिमाग्व स: दंदयायमास: किसाथ्वा कं पिन छा आथास्यं लि॥ माहं नथालं: आयरा वियाथानी॥ आमस्व

ह्नाय जुजाय: छं नजुपमान यानसीं: दंदयायम जिआ। नाजायाथ आ जु ल्लायाद गयाक्ष: थक्ष लयापुमाय किसिवधयह लं: थनं लि

वाप्रियासमय सनाजानं: छनं: हवानीजियनि किसिजुनियानं नाक लाथस्यलि: वानीनथालं॥ हमहा वाआ: किसिमाग्वलनं कि

कः किसिम दनकि वकोआ हमायानं॥ थ्वनं पिनि नाआ नायमा सथयाआ: महा माआनं थालउमायायमा ला॥ आमस्व ह्न यमन। २३

स्यानं मानमेमेयाक: थयाआ ह्नाविनां कुयायम जुआ महाय वाक्षमी: थ्व नरव छ नाआ: स्वमक थानं॥ थ्व प्रकानलं: जुनमला

सणछ आ नयया मह्मा छ नाआ निहां आयाथ लस विरूपस्व माव नवि आ गुआयाआ नवया लाव न। किव कोविसं॥ लि स्व यानमहावि

रूप स्व नाआम्ह नाम थायाआ॥ हनं कु यादिनम लस्वयान आमा विनथ जान स्व याआ निहां आयाथ लस: स्व वेयान नायवं आम

यन गाथा म लाकि काआहलं॥ नाआलक्षविम नियानी। आययुलमहा वाजा कु नाविम नियाया॥ जिप्रियराव पुला थ्वपक्ष नाक्ष नयी

निनाथायमान: कुपछनक्ष॥ किसिमाग्व कक्ष॥ किपं वासकक्ष॥ किम स्वयाव कुंभ॥ नायक नथं यावि महामहा गुमानि स्व

निविरूप॥ कि जिन वला कुआ॥ किथ पिपिनी नाक्षाआ, थ्वसिमयालं कुव आयकम कुंभ थ्वयाआं नानी कुयाथ्वविन पमान

श्री २२   ३१

स्वयंभू न धस्यं सि॥ राजा न न्हाङा दयक न्ह्याम थ्व कायया यम गा। न्ह्यस समर्थ कार्य्य: न्ह्यम थ्य क्षस याक न्ह्याक ला। महावीर य
राकाम्ह स्वयंम हा बिन्तु पजि वना॥ थ्व न्ह्यक्का ब्व म हा राजानं बिन्तु य, थ्व मानिया हस्त उस: यिमिना न्हाय गन, सहोजिस मानया उंग
लं: थ्व गन ज्ञान मानयम याक सहउ: गम वायम गं जिनं न्हाम मया क॥ थ्व न सया प्रजा वन। उंनं जायिया ना सक नं स्वयं धउ। २७
माया हत या: न्ह्याङा न्ह्यथ्व नस्या न्हां उ नमग॥ संगान काम्ह न्ता याना॥ अब्ब मीत्तु मग्य पास नाया उ: संगान दङा नास: दि दि थि थिं
त्वा नस्व याङा हस्व नं का व हन ढ्न ला वा थं॥ थ्व न ख हना न्ह्य मर्थ्य वायास ध हवाया। थ्व नपु का नंगुलि। थ्विंका नस ह्र क्या दिन स
॥ ॥ न्हाङा व तु वंग य न न लि काजा हालि व थस वा ना पिखा वं थ्व। गग विज्ञा गं॥ उच्छान या गा मा सा स्व या ङा। वन सत्र व गया

नं। थ थिं ह्न व ग वस न्ह्यक स्मा न न कि सि ग न सु सि न्ह्या या ङा न्ह्य ग्निउ स्या ग ह्ला। कि सि मा ग स नं न्ह्य यि गा क या य म स्या: हा हा
का व या ह न्ह्या हा सि हा नं। मा ला उ न प्रजा सा क स नं मि स्या य म हू॥ न्ह्य सि न्तु वा नं। हृदर्ग ना वा नी॥ अं न पू न उ न र य वा या ङा उका
क ग ह्या क म्ह मी र्थ स था ना उ स्व या थ्वा नं: थन न्ह्य ग वा व ग व ग या ङा वा सू व ग न ङा ना ङा ना जा स कर व व बिया। वा जों हू स सं वा
सू व ग न ग न ग या बि ज्ञा गं स्व या ङा कि सि ग स क सं: न्ह्य मि दा ह ह्या ह ग स नं॥ हा थ जा ज स पा ङा न्ह्य का ग स स्व या ङा सा क व स्या ना
हुंसे म व पा ङा। थ्व नु न्ह्या हा सि हा नं। ग व क्ष क हा या ङा थ ग न ह कि गा ला हूंसे हा या ङा। स्वर्ग प्रहा व सं कि सि। पि ख स त्वा क न्ह्य ना ङा
कि सि ग स क स पि न्ह्या या ङा। व ह वा म वा गं हा हू नि ना ह या ङा न जू या ना। थन थ्व न्तु या प्रजा व न न्ह्या का ग स म घ उ थ य हू या म हा

धिंहूयाउ॥ क्रुनमात्रं अथिपाकहृत्तं थिथिंम्न वाजायाप्रमापनस्तकलसावकउ नंउयमदूयाना॥ धन्य २ महा वाजायाप्रताव
महापवाक्रसीग्वक्क नयुगिहायानामात्रं महापुष्टिकृतं॥ धन्य २ साकम्व नयाप्रताव धर्क उञ्चस्वनमाउयथाम। थनंलिकूजाना
मताननीकक्कसवाजायाकूउदेवीनाकविन्तपथयथाम। धन्य २ महावाजा वीवकूनधन्य २ खक्काकूवंभयाहिंहृधर्कं महा
वीयपवाकुभिधर्मगुनयाज्ञाधानकल्याणसकुन धन्य २ कुमाहागसग्वक्कयायवाकुमनंकि स्विवक्काहूस॥ वाजकुलसंथामय २०
हूस॥ हवीववाजा। वेनंजा। विहृयमाव कुनपालथ्वलिउसकाहिंग्म वयथामं कविन्तवानामहावाजाप्रसन्नहूयाउ॥ याम
यीमांवनअसंकानज्ञादिं लिनीपामविस॥ कूजाथुलिसमायाउ॥ अलिंदामहावानियाधर्मः पूनवीसगा वयथामं धन्य २

कुसपासयागर्ह नायंथाहांउपूर्वयायवाकुमं। स्वदर्शनानानीयाः कुसपासम्यसागह्लधर्कंनानाप्रकानप्रमामायाम
॥महा नानीयासं दहनस्वोसरिव व्यूकाकथासउनाउगाननयाज्ञाउमहाकुंजासंधंनाहूसे॥ मसावाजाकम्पीपीवसुथवा
यावनसम्हदर्शनास्वनाज्ञाउमुविजागहूसनायायनघथेयायधर्कवानं। स्वदर्शनानानीयामनसलासपाहाहा देव: स्वक
स्वनं। कुसयथामं: थाथिंम्नमहाविनूपांउपूकुवथमकान्मसदर्शनमविस: कुथासमनमदयहू॥ कुवधानिमालगमजि
ज। वनथ्याकाउसवाउस: ज्ञाप्रपिमव॥ किसिमायुम। ज्ञानवाय॥ स्वरवपावनायक॥ मानभनमजिय। धसकपांमाहृयाकु
लक्काम॥ ज्ञाउजिथनमवान। ध्वमलनपात्रकान्कम स्वीयाकुधाय॥ सापुमसरवीसला नरवकूउ॥ जियरस्वापिमहावा

ॐ जाङ्गधानविन्नयरखडलागुक्षङ्गम्निभक्तयाकक्ष॥ सवियमिहेघ्रहंनक्लिलाधारं॥ ङ्कलपालमखडामकेलावप्रनी
भाजिनङ्कविमनियायमलकनाखयाडड्नाडावानक्षङ्कलयाल॥ थमधासंलिमृदर्भनावानिग्रुफमार्गनेकच्चङ्कउनगनयाम
मीयमलंथनेकनडानं॥ थनंलिमखक्षवा मनिंखववनलियाडमलखोजनक्षायाद्दवो॥ थनमनक्षंकुहायाडमलरूपानमदनाडया
जङ्कलद्दलांडनामामवववनलहागपूयायवमवंप्रमालिंगयामलं। थिथिंहक्ष्मवावययाना॥ थनलिथिनामडुकवाड याव
वनसलागपूयाडा। थनंलिङिवाजननाजायाखववनडनं, हृदर्भनायामिखामखविनवं। थनमखक्षवानीयामननल, मंदहयाः
यामखियाक्षडनंमखीनविमनियानामकनमसमयावयकन्नं॥ खक्षानानियीमहनमावियाधंनकायमनगधकें। हृदर्भनायानि २८

हृखवनंकावहवं। थननालिवीवङ्कभवाजायामंदहयानाजः वाप्रिसक्षथामलयवयाकें। हृदर्भनामहृमउालमतिघृक्षमामया
कडनं हृनामाहृदर्भनागनडानेधमखालि नामवंक्षवमलियामावकृयानूयकमकधसंलिमहानाजानधावक्लिगयाद्दिनमउलां
गहृलनाउकूलसामिदनःहाहप्रियाजिक्षनखनायेखिकृयया नावाविनूपहापाविनमकृयानाउालखागयागना गनहृयावानं
गा थउाक्षउानवाधकं हाहाकावन जुर्ध्वयानं। मनाहवकिक्षकन्यायाविनहन हृधनयाजकृमावजुर्वेर्य्ययानाथ्यो। हाह
कावप्रियहृदर्भनागनखानखयमहृक्षप्रकामनेप्राणमायववयमोहृयखानखयामिनिधकधीर्जयानं॥ महानालिङ्गालिंगाः
नाविवापयानामूर्छाहृलं। थनंलिमहामाजानविमनियानाहामामाधीर्जयानाजहृदर्भनायाप्राणवचयहृयमाधकंकामनायामर्द

ना।

ज्वःमाव्वु गबपास नाया डा: ल्हिं ल्हुवर्नगाभा नजान स्वदर्गना स्रभत। ल्हु सथास्याद भनियाव जायसृदर्गनाल्हयमन्हुसा:जपावनयुव

भयाय धास्वसि॥ जमंध नं त्रि यं पूर्ख जाम थ स्यय ब क्रु वोर्हि नाजाकूयाधमनंमाव जक्कजा। गनया वनपुव भयायंकूयागा मि निवृस्व मी

घत्रयाप्रुनाव नभव नाजाया कांवि वाह्याय धास्यं सि:नाजीविमनियान। स्वदर्गनापुियविनांकुनमात्र प्वह्नुयान्नमस्नु: जीवमनवसंस

र्गह्र सं। ज्वाजाह्लुधन नाजकूमानथ्यंत्र भयथ्या माल:ह्ममानावगुषह्रि विघ्ननजिमयया चंस्वदर्गनावसास्या कंह्रया। पवंगुजक्सीयाउ २६

पास नामात्र याडह्मास्त वायमभजूधीर्थयायमभ। धयाजाथसा कयाजमामयावबनसलाकपूयाधार्वजिववानवासवधसस्वा

सम। मकथनिजिपनाक्रम। नाजाकूया॥ कनामंख्व नम।मकग्यानाजज्वपुियहसा। प्रनाकुमजिमययाकह्रयधके। गमानयाम्वं

ना।

जयाजपुंहिन मनि नाजकू मावज्मा ल्हन्नकाउ ध्यालं:ह्म गूबूस्वा। ह्नियुह। मि जिह्नसंसास्वदर्गनामा वजाव: ल्हुससा

सानायंथानाह्रया। ह्रस्वयायमाव साग्ध ह्लालिवियमाल। ह्लयकमन्हुसा कित्रास्वागयाय किमयावनपुव भयाय:जाउ जिमजा

गसह्नुमह्नुमह्नुमाव नाजाहाव याउमान्ययाकमानययाजम हानानीयानंमान्ययाहकिअपुजापुमिपावयाकथाउधकंधयाजाहिं

हासत्स नयाजकूमह्नुमकिजायानवाजासानाउकदावबंदायानाउवात्रिसमयसपिथ्वानं। वीलाकूज्वमात्रह्नजानाउनाउसंसं

वनाउ:ह्नकिनयासमह्याउज्वबलाकिमवनयानामजकसहाययानाउत्र काकि। पिहांजना। ह्वदनथ्यनाउवीमथ्यनावुा

ह्रख्वननगीमयाना, साकयाह्नर्वयानाउहिजाकयाउसाउनयानाउस्हर्गनामासह्नसं॥ ग्वासिक्किंसाकनस्वदर्गनावानीसविसम

न थ्वस्मार्गनजा नाओ कन्याकुळं दन थ्वनकवं॥ थ्वकना प्रकावंनंसमा वाव सियाओ कन्याकुळं दनयासमीपस थ्व मसवासयाय
थकेहृदयाओ ह्रीनाथना अहृस्वनन थ्यनाओ थानं॥ नकिंवाकुमसनजुमिन समायाओ कुसवास वियाओ नकिंवान क्षवं।सा
सिद्धकथनियावाग्रिस थ्वअमसजाग्रादजा यिहांजनाओगीनयाओ। थ्व गरवछनोओगीनयानाथानं॥ थन साकेनसमायाओ सुसि १०
हृयाओ॥ ग्व कुमसनंदामविलं: ग्वकुमसनं नानाप्रकावयासवसमाधिव। धिकादिंहाजन विवं ग्वकुमसनं वस्कविल, ग्वकुमसनप्रसं
न्नयाना सदाकावं जियवस थन वासयाओ थकें मानयानं॥ थनं सिजाजा थ्वनकाओ साकहृहाजनं। विरूपस्किवं हृहायाओ हाओ
नयानं॥ थन नकिंवायानं हाजनयाकाओ समिपूकुरुस्वांसिदमसंगीनयानाओ हाजनयानाहृहांओ नाथन हाजनयाओ॥ जिन

ख्विवायागुनसम। ख्विवायागु सपूमाहृ॥ हृथ्वस अधिकेंनयामहृ थ्वसहा मिनंसकामहृयः ननानंकुदजायका। ननान कुस
नवायका। स्वामिन। किंहृयमहान् सहृय। थ्वकगुनदयकंअधिकहाजनयानं। निकिंवानस्वयाओ: मनुष्यामसूथंथानं॥ हृत सा
पिमाव नाहानपाओ ग्यनाओ वानं। विरूपन क्षवं: सेंदहृवायमगं: थनिकुकुजकवासयायकदूसओन धयाओ। ८ यदकुसी
जनवियाओवाग्रिस वासयानं: नकिंवायामनसंदहृहृयावाग्रिसजागनीयानं। थ्वनं सिग्राणकावसन किंवायाकवसाक
याओ वीनाथनाओ। साकथा हृनयानाओ: कन्याकुळं दनवादिविसजुगानसहृहांजनाओ, स्वनहृस्वंसि: मासिनिवायसानाओ
·मासिनियाकगीनयानाथानं। मासिनीयानाओ कुसयानसानन यानयाछथानाग्वसिसानन्यामउकदयकाओ सांधकासिउय

मिथ्याराजनछ्व।थ्वयादिनानाप्रकावयाःस्वानथ्वयानानागवहं।स्वानमानादयकावानंविसूयरुकिवनंमानाकावयस
नायकाउःउद्दानसनानाप्रकावयास्वानथ्वयानावनागवहंस्वानमानादयकाउःञ्जिवाननाकिञ्जारानसदयकाउस
कननंदथ्वसकुत्रजउंरवउं।विनकूणनयाउस्याख्वनयाउमालिनी।ञ्जिकिसूसिद्रयाउथनस्वानमानाद्रूयकाउञ्जा
रयनदउसनयाउवाजायाथसयनं,नाजाप्रहामेसकंलंपूसिद्रयाथ्वञ्जारवनस्हदर्गनायामजाग्यथकंधयाउस्यक ३१
पूवस,स्वछनानीपूसिद्रयाउस्हदनंमेयानविव॥स्हदर्गनोनवसमायागकयाउस्वसांलि।विसूयदूणया।विद्रवनाउमाः
मकास्थवनाकावं।स्वछनानीप्रुतनिसरवीसनउयहासयामं।वाननाकवानयामासकावमास्थवनावानमनाकग्रलिका

५२

वञ्जार्गञ्जानिमनथस्यांलि।ञ्जानमानिनयासंदूवाननाकु;नानागवहं।सिद्विमवनाकु।जिमनसमनाउ।ञ्जिमर्ये।वैद्रलस्याउजाम
यउथयाउवनद्रनाउस्यनकाउर्लझ्वायायाउथउकाथसनानाउममनसनापञ्जाउगथ्वययहारुकिउअधिकानंथिर्लस्याम
हाविसूपवदनामद्रणथ्वनकनउनःथ्वलिसिसमासकस्यनंनिदायास्वलायाउहानस।विवयामथनंछिमानाकाननकैकेनाउ
समयावठनाविनपयामनसमदद्रकयाहावया॥नितिछ्वस्वनयाद्र,ञ्जुपमानंपूवस्हणमानमस्हथिद्रनर्गेस्वकार्यसाधय
विद्र,कार्यहानिल्हम्हर्वना॥ञ्जुनकप्रकावनंञ्जमानस्हयानामाननाननाथउकार्यहानिद्रवनासर्वलसउलस्हउस्हदर्ग
नानानीञ्जुयमानयासाकार्यसाधनयाय॥मामयाकुयीञ्जुकूमीठनयाप्रहावंस्हदर्गनायानीयामसवायरनध्वना॥सूययमा

विश्वाजित ययाय हायाऽस्वं काव नंथिर्थ्या नामा ता कावया कवसा कया अऊढा ननंयिह्ना उयाजा विनाथ स्येंताचं गवाग कोनेम
वियरुव र्ण नमहा याश्रा: कत्वाकूऊ नगयसरुहांऽ नाऽवी नाथसंमहा याऽ॥ दूंरु कावयाथसऽनोस: थनदूंरु कावयूसिहं
या सिकंमा विवंदूंरु कावऽसवायया स्यंस्र गेवाननाकेदूंरु स्कगवदय काऽ॥ श्रीअवसा किगम्ववयामहल्लियाववनस विदू २२
पयाम्ह लिथऽ नाम विद्धनया दूंरु कावसी॥ वाऊक्रूसमयनाऽ मद्रुकवाजा नस्दूदर्ग नागा नीयाम विसंस्वदर्भ नानानी नैस्वया
ऽाकूमनदयकूगूराऽ।मऽस्मार्नः थूगूख्वदूंरु कावनकनाऽसमयावरुनाऽसवंसाकयाऽ। दूंरु कावंनं ध्वनंहारस्किवस्म
थमाहा याहि ज्ञावर्लमानयाय स्कायऊंवावययाय धास्यहि।ऊिदूंरु वमयूगौ र्थवा सिजन कगौर्थ दमदमांनववुमवयायमावधया

ऽाथ साकास्यंऽयाऽ॥ मऊ कावयसिविऊययानाकूसहांश्रानाऽसिम्ना विवं: थननानायुकावयाहस्किवथ: श्रम्वर्भ वथ दूषवथ
थवथ हृत्याथिंदयकंनऊख्वनानासदूसयामथाऽऽनां॥ विदूपरुकिवंवथदयकवः विद्वयवाहृनस्दुदर्गनामयाऽ दयकाऽ:हर
स्किवथमविनूमाग्वननस्दुदर्भनायाकविसियामरुनाकिवकाऽसिकनमयाऽ मऊकावनवनाथसिहयाधार्व॥ हारस्कि द्वि किरुसं
विश्वकर्मयाऊवनावथार्थग्रुकवावियासदीऊिथ्वदिमःऊिनयावनायायथ हृस्किवथवानीयामवेरुयया नाऽद्विनसिवयावबि
र्यविकथयाऽदहस्किवथमहानाजायामवरुयया नं॥ स्रूकृयवसविया क्कार्गमहा नानीश्रीकियाहावनस्दुदर्गनानानीयामविव
॥ धन्यारविश्वकर्मयाऊवनावस्थगिमनादरुयमहल्लिग्ववसंम्ब यमननाधकंसिनापाविया हृवं॥ स्दुदर्गनानानीस्वयाऊस्वमि

सुज्ञाया या कायन त्रकां न का थमदु क्रोधवियाविध्वंसयागं ॥ नउ काव नायकनं क्षवंस्ति वापा प्रसन्न जुयाव । किन काउथ
स्यंसि ॥ उिन जुयाजन धया । स्नि गन केवसाकयाउजनं ॥ ह्मान नाउ नथुनंकाउ । [illegible] काद्या हिलिउ याव थविया । याथस
उनाह्न नाउ जुयया नाउसम बाव ह्न नाउ ॥ महा बानी सुदर्शना बानि । निक्षसया गव स्वज्ञ निद्ध याद हियाउ ॥ थविया
नायक क्षूसिद्धयाउ क्षवं, क्रोध किहृं ह्निदगगन, नामदु खान ह्न किनह्म याक्षस्वं लिउ रुवाम विसयं बसाकयाउजनं ॥ थविया ३२
नायकं अकुपूवसमहा बानी यागवस्नु व ज्ञयया गं महा बानि प्रसन्न जुयाउ स्ति वायागं ॥ सुदर्शना बालिं जुप्रसन्न जुयाउ वस्नु
स्वाभिंयाग विवं महा बानी प्रहर्षित जुया वाव ॥ पूनवीवह्न किन ह्मन सांदगढ हांउयाउ ॥ नाप्रका वयाकउ नाउ क्षावं । महाथ ध्रु

नकाउ । क्षंस्यंह्नि हिज्ञाकाउ क्षस्यंसि ह्न नाप्रुकाव नायक हिज्ञायानि निंगथउयया नामदु पवंजुक्ति वाज दुःख सम नायक वाउदुःख स
यागद कार्य क्षमानि नायायका याउ हिह्न याक नाम गस्वह्न न क्षस्यं लिक्कन स्व वयाक नाम गस्वय दुःख न क्षस्यं लि वाउ दुःख याक्ष जुक्षय
यागं ॥ ह्न किहृंन का थाउ सन दयकवं । थन सुवह्न याक्ष थाउ सन खनाउ जुनिवानना कधव्य रंव्यपालि जुयनिग स्यन्म वधया
उ । क्षथाउ संज्ञ कुपूवसमहा बालि यागविवं ॥ प्रीतियाकावनं सुदर्शना यागं विया ॥ नाप्रु कावयाग स्ति नापा विया सिसंयं पस्यंसिदकि
हक्ष हस्वयाउ विनापयागं ॥ सुदर्शना बानीं विज्ञूयया कार्य सायाउस्यनकवं ॥ ॥ पूनवीवविज्ञूयह्न केवं सुव ह्न काव नायकया
विउयया नाउना नाप्रकावं जुनिवानना कमना ह्नयाउ कह्न सवयन, नामाह्न वयन ह्न ह्न वयन, यादह्न वयन, गिनाह्न वयन क हिह्न

थने थ्वगण्ड्हु ह्लनदयका जाह्रवर्ण्हकावह्रु यागविनं॥ स्वयाजा ब्वूमिह्र याजहना॥ हेह्रवर्ण्हकाव थथिंजुमि बानना क
गह्नाग्वक्क नंदयकवं॥ स्वनानंगथ्वनसंस्वयमननाथकंस्नाह्नह्रु स्यांसि विमानियाना जामहा नाजुमहा विन्नूयहंन्त्र क्रूजा
याजा महा याजा सिन्नाया यानिमा ह्नाया यग्रहानथ्वह्रु किनह्रु याह्ना। नाजह्नू लसजन्नजा थकं थयांहाकंह्नू लसा जयक्षासमहाना।
जा क्षस्यी सि। थनबानाह्रयमावजूमा विन्नूयह्रु समांमहा गुनिकथ्वसयाग सिथाया वियायावनायाहं जयक्षस्यं वि स्वबर्ण्हकावह्रजा ३४
हेकियाजाह्रु किवह्रुयानक्षवं॥ ह्रु किननंक्षवंथनियादिनमनायया यमावजुवमनमजायक्षयाजः वीनाथनाम्हहानाजा जानंमहा
नाजासयकर्वंक्षमहा नानियानवियाजा। ज्ञाह्नदयका ह्नमहा नानी विन्नूयह्रु किनयाक्का नाथिवाननाकन्नाजासनकन्नायाजासिन
थ।

यावियक्षस्यांसि। महाबानी ह्नदर्गनायानवियामकासन्वा समसिनयाना बानं। महा नानियह्रु मिंजूकपूवसः सन्वीजनयनि
सननानायुकावंह्नूदुया नाजा। काजा २ निजा दक्षस्यांसि उसिक्षयाथजाव्कु थसजानाजामह्नाजूं दावंयाना थनह्नवर्ण्हकावं विमः
निया नाशासमहा नाजा विन्नूयह्रु किर्द्द्रूजुवमनजयथकंजानी। महा यानीक्षव विन्नूयया कानननमनाव॥ थनं सिविन्नूयहकि हुनि
सीमनिकावयाकंजानाजास्नूस्वननगीनयायथ्नुनकाजामसियाकायीयायगुवि। मिरवयनानाजा जिनंक्काय थयाजामनमहह्रुकथसन
किसिगवसमिदनागुनूगवसमिनपूना॥ थ्वनासेकननक्कावनयाजामसिकयाजारननं। गिमाक्का नामनिकावनायकंवना
जासूमिह्रयासि शापाकाजाक्षस्यविजूवसवासियायाक्कननवियपवंगुथ्वपूविक्काग्ननवढायया नाजा॥ नाजायाकं मियापाकाजक्ष

याङा मलि कारवनायका हुं राजकुमारस राजाया कवराययाना राजा थुसियाङा। विनू पद दिव्य याय्‌म्हा या कौतुक वायाङा सि
यापा निहुसं विचार दिव्य यान विङा थ्व याङा मलि कयाग हुं नाम स्हा वा निम्ह क। वियाम स्हा वा निं सुदर्शना याय विया। सकन कू उय
या नामा वना सं दह हुं याम स्हा ना नी तावया जूनक प्रकार सग्रह ना जुल वान राक सकस्यं न। वियासुदर्शनं मका याङा हुं का
वसरूहुस्तुरव म स्हा सं दह हुं याङा हुना। सुदर्शना वानी उल्ह वाम विया थङा हुं थम्‌तङा नं। थनं सिमा सिका वनं सिं याया वकयाङा।
दविदृंया कथा याना हुं कि हुं मह्‌ता राजा नसि वाया। वियाहुवकाङा प्रचं तु सुदर्शना वानी याना। वियांस काङा ध्‌यस्यं सि हकि
हुनं थ्व वम वका सि नापा हुं याय जाम सुदर्शना वानी वा विरसा काय थ्वङा थनं सिं उत्र कावनाय कया कङाना ङा जन्तु

३०

मनुया सहिमाया म्हाराजा। विउय याना ङा हिजा काङा ध्‌यस्यं सि, कि हुं याद नसा सि जाया यानेसा, कार्यं जुथ्वय याङा ध्‌यस्यं विका
र्यसू थ्वय याना नं॥ हकि वनं नाना प्रकार याएं त्रकीजा थ्वया। क्षेम वहस्वदयका जुमिनना कर्यं जन थ्वय म सस्ता कुखसुदर्शना
वानी याम्ह लिनयाङा॥ कुख विरूपया म्ह लिनयाङा॥ हाथ हाङ नया हसुदर्शना वानि किका लस्यन वकुवलि राजा नं। हाथङा
वयया नाङा थ्व नसं कनक्ष जन याङा। म्हवसादयकाङा। पुनवीर काव पान कांदयकाङा। जुमिवान वाक हुंगङुम राजा।
विरूप कुत थ्व वियाम्ह लिनयाङा॥ पुनर्वीवरा तुहुं॥ क्ष्म स्वा राजदंस कयासिवा कोकि स्यत्रया प्रला वनख नाङा: हसुदर्शना वा
नी गुम्हान माव सिधकें रव क्ष वकाङा कवनदयकाङायंत्र कावनायकें रव नाङा। वसमा याङा राजाया यामविय नुनं। राजा नं जुकु

थ्व स्ता विया स्नानं महाबानीयागवढाययाव नाओ, स्नानसखव याथूनं ह्यय काओ, राजुनयथययाव काओ, हस्ट्वर्मनावानीगुमानथा
थगाथुस नहृयमाव, थ्व गरवठनाजूस्मि हनुवायाओ, महाबानीं धानेसायेंथ्रकाव, थ्वजंथ्रस्तुनानं गवस्नानदयकव, महाबुसिह
याओ, स्मि हनुवाया थूक्षस्यं, वेजंथ्रकावनं विमानियानं॥ सामहावानीगवस्नसयाविवूपसमानमवसहा, गवस्नसयागुनस
मासमबहू, थथिंमहाविवूयरु किइंस्नस्नाओयाओ, हस्वयनेवीनाथमनाओ, गोगगओययान, हिस्नाबियामकाओ, स्नायायगुपि
स्नानेओ, स्नास्रथययायाहृं बिया, थ्वसकनानानाथ्रकावनं दयका॥ थ्वगरवठनाओमहाबानीव, स्नाहादयका, साजंथ्रकावस्नाम
रु किव थथानाह्ययमाव, सि गयाबियथ्रस्यं, सेजंथ्रकावनंथ्रसं, सामहावानीस्हदर्मनावानीकिओसा, सिनापाकायंथमवना, पि ३०

वापानहूनकाओ थ्रनव थ्वगरवठनास्हदर्मनावानी, गमवायाओ, हूस्काववियाओ, स्नामरुकिनहूओ, नायंस्नयानिनिस्नं, ववनवि
सहूनाओनयरु किर्हयागंठनकव स्नायथयाओ, ग्थनास्हूयावानविवूयरुकिइं, निर्यययाइंवीनाथनाओ, गमानग्नु स्निव
महिमारव, सगधओययानाओ, साकयनिनिस्वययानाओ, गथिंजृहूगग्नाग्र्यीवूयस्वया॥ हूस्कावयानामिस्वामिसियमा
वायूलहना, स्नसथालसवामयाइंमिस्वाकनमाल, थथिंस्नस्वयंमननाथयाओ, सिसिओ रुओयाओ थ्वकाथ्रकावं, साकयनिनस
नायकाओ॥ ॥सधिकर्मिनायकयाकेओनाओ, सदिमागओययानाओ, विदूययाइंपाकनमजुथमानथेमथिवधिनाना
थ्रकावयाइयकाओ, समिकर्मिनायकेनं, वाजागकयनाओ, वाजांसागयानं॥ स्निजलकस्वसवाव, वाजाथूसिहयाओ, थथि

ग्रहागयायउस्माक नयमननास्थुलिसवाद तिहमाधिकर्मिनायकसक धावं॥ तासूयकाव स्वववसंमद्ध सवाव मधिदयकं
हवे स्वनांम्ववक्षंदय कउ क्षपाख धेधवसमदयकू स्कुनदयकामहू सोधासींसि मधिकर्मिनंविमनियामं॥ हामहावाजउठहु
नंसकनगृनंपूर्लविनूय स्वयमययापू थथिंक्षहकिईयाकवामननानाम नदं॥ याकमस्कुसिडा अस्नमाथि। वातिम
सूविनूयमास्यदाय स्वस्वव वीनामाग्रसहायजनकप्रकावं विहवूडययाना मधिदयकाउविवधास्यं सिमहावाजां॥ जा
स्वोहादयकाहमधिकार्मिनायकं विनूयरुकिहग्रलिकस्वउ स्नधिकगृनकवामनकन जिकसवामदवयायहायाउ २८
जिनयावनायायथन धानाह्यमावनूडय यानाउहयमाव थमन्नाह्माठनाउ मधिकर्मिहूक्ष्यायाउ हकिह्याम दूडययान

विनूयनंतापावाजायाकउहाउगृलयवाक्षमनंवूडययानाउ सेक्षाउयाउस्वर्दनाउ संजागह्यसंधिसवाव संजागह्येहे
दय्व हृवसधानांविडागह्यिहूह ननयययायमामथहि स्वदर्मनांप्राप्तोसेगयाथि॥ थवनिमिसिविहूडययासिन स्वाउप्रवसवसउ
नायादर्मसियाउसं ह्नकगृलप्रकागयाय धूनलावयाउस्नूयानायकह महावाजायाहाकंक्षुस्यं सिउसथयाग दूर वलासधानं।
महावाजा या स्ववनस सवामयानाउ वीथविक्रमयवाक्रम महिमायागीनयानाउवसेनवागकयाउ कामहागमक्रोपूस्नूव
हागमहिमायागीनयानावावं॥ महावाजानंभाव थन २ ७ ववयास्वक्षिस्रुनि हतुगाथिविनूय स्वयः यमनना॥ निगी
सवक्षस्यनयाह अनिगलसदायदया अह्नमयवक्रुमायाकवंथधामेव स्वयस्वकाउदव यावाजा ७ तुयाकयावसर

कार

गस्तकेनवस्तुयविज्ञयाक। अग्निसर्वस्तौग्नि कामस्वयसस्वानस्तकंथमय थ्वमनायुकावसं संसारसनिर्क्षयस्तं मह
यनंउयूलानंप्रकामयिन्नयका। किसवस्त्रसवयन्वनयुकाम थ्वमनासंसारस्तयूलप्रमन्यूय सुयुमथयाओरू किई सक
दनाओ॥ स्यामदामनिकरू। किईक्लिथिंग्वलिकस्वैमइ विन्नूयंस्वंमइ क्लिजामरू। क्लिंदमगन स्रुकावनंदेकिईयाथ ३८
स्यांसिारू किनंथवें कामानिन्द्रासुगइनाया मद्दिमास्वमडयया नोओ। विमानियानं को मीउग्रस्मगहाव वनस्तमीयस।
वासयाकस्तु न्यूपत्राझलयापुत्र विन्नूयनामत्राझलयान स्वदर्मना थींझस्तुन्नुयिविवादयाद्विवि विन्नूयस्वनाओवाझल
मावनाओओनं॥ थ्वत्राझनीयाविवरूनंरूकिईयाओ दमदमाकवरूवयमानारु याथकं त्राझनीयाकावलंम्रकंकनं थ्वमव

दनाओमहानाजानथ्वव: दरूकिई त्राझननीदुझसयाकावलम: स्रुथिंझग्वलिकरूकिई यस्रुजाग। सवत्रालनीविवा
दयानाविय स्रु: दु: थ्वनउथ: सकनाविया ओपांउिनंयावला याद्दनय॥ स्यामत्राझलनी: सालमना। किउथ्वस्यांसिारू
किनंथ्वव: अथिंझस्वंदविन्नाझननीस्वमइ॥ उमिवीनवूलमसानाजा यादूदर्मनावा नीरू स्रुझमाजुदओ॥ स्रुसयासया
रूपादनसाओझत्राझलनी स्वयकाओविओ थ्वस्यांसि॥ ओनोमक्तिसकथ्वव, दमक्तिथ्वसयान स्रु: दु: सिवापासकनावि
ओपनंउत्राझननीरुयानवेवनयाना, सकेनक्षाथ्वरूकिई नंद्विजगजरू नमस्वपकावयाद्दनय॥ यनंउजके पूवसग
नीरुथ्वयायमइ, थ्वयामनानानथ्ववनययाईनयमाव॥ थ्वमन्वाहादनाओमक्तिरू नज मिस नादवस्रु: दु: वियाओ

ग्य विनय दकिहं सिं पन याउं नया ओ। स्वय कान ह्याओ, पाक भ्मसुयायु मानथे, नाना प्रकान खुवान याउं पा कया नाओ वाओ वा
नीयान: राजन याकाओ, वानों जा वानीओ जिहं सिं हयाओ, दिनप्रु मिं वक्ष संका वओ आदि॥ खर्च वियानवं स्वपकान हुनंदा
नथ्वस्य या नाओ, यासा पनि नवियाओ, ग्वक्ष दयं नं वन्य या ना॥ ग्वक्ष ग्व सह्र वन्य याना: ग्वक्ष पवाकुमं वन्य या नाओ॥ ग्वक्ष घू साना
छुंति हासकथं वन्य या नाओ: सकन साकेषू सि याना ओ॥ थथिं ग्वनय वाकु मरव नाओ, ऋक पून यामहा वानीप्रु रु किं घसि हयाओ:।
कुकुया दिनसज कुपूव सओ ना ओ। महा वानीप्रु रु किंख नाओ, कर्तुक वाया ओ शाम हा विहु: ओ ओ सवि झाहु निक्ष सपाल याग
लसहि मा खड नाओ, खूसि ह्रु याओ सह्रु नापू रु छधक धान कनह्या, रु सपौं समान गलिक ह्वमहु: विनूप धकर्स क्षा वाय
सन ध्म स्यं सिविनूप सहवा वं, खदर्म ना वा नि क्षओ नद याओ, स्पन वाग कया क्षाम विनह्या, गीमया नाओ स्वदर्म नाना नीस्या विनह्:
यंकाय वायाओ हं मिखा सखा हि प्वाय वया नाओ, थओ का भ्म सत्रु कां नवाना ओ मह्ला मंदा कयाओ, नाना प्रका वं लान पाओ मन धैर्य यानाओ
थान॥ महा वानीप्रु रु किंघू सि हं नं॥ थनं सिपू दं गथना ओ, वसें नवा गन महा वाओ: हुनं पूनवर्वाव, वं मपूयाओ, मसा सवागन ग्मओ
यया नाओ: थ्व नना प्रकावलं नओ वाय थना ओ॥ वाकि सवा गन म्य सा वाओ: वानीप्रु रु नि विडयया नाओ॥ थ्व नपु कायं स्वा नद्न छं
स्या दिस कव कवा वियायानं, ग्ववसें से मकु नापू रु सायूधनं, वियाया रवड संस्वाय, ग्ववस्स संसदन विया॥ ग्ववस सं खा सवाना
विया: त्वहवा सिय काया विया: कुह्य या वियाप्रु रु किंगा मया विया: आदि वउ पप्रिक वा विआया नाओ॥ जिनय हयाओ विडयया उं सक

३८

सयाखासखायाव । क्ष नवहजह्याउवानहस ॥ थनंसिक्कयाविनसयायंयानसखीजनयानिस, नेनं केकाम्हिलाक्षानखनाउ
ःस्वदर्मनारानीनमखायाउनखानं ॥ जुनयाविषसखीजनक्षनिनायानाखासस्वयंमययायुविनूयउनाय र्माखायाक्षसहृउाय थ
थिंकासम्हलिमवीस, थीयंमययायुः दनंपूक्षखउास्त्रीउ संक्षामययायोग सयंमखायाया ः गनजामयक्षय, जामखानखासहक
थमसमदयाउ, दकिईयाउउाक्ष ः जाउ विजिक्थमसहृहाउयमनक्षास्वींसि ॥ विनूयहखानंक्षने क्षाया ः स्वदर्मनारानीक्षसया ४०
सयानंस्वहक्लियक्षसंविः क्षवगूहनास्वदर्मनारानीहक्षानवियाउनाना ः जुयवन्दुउनखानवासविनूय, जिमिदमसवासयाय
मनदूउनथउादनहृउा सउानसागयहृथ्याविंयाउाक्षायक्षयाउविनूयनंस्वसदूनहिनाक्षने ॥ महाराजाक्षस्तियानाक्षन

नविवाहयाउं कसानयाह्नउाः क्षउानायं स्वयम उानमभूनाः हसखीजनक्षयानिसन महाराजामहारानीसक ः विमति
याहं ः गमहासियाहं विउाधयाउ ॥ थथ्थयाउासखीजनसकसंदनगंक्किसाधास्वदर्मनारानीनसखायाउ ः थउाकाथमसउ
नाउ ॥ हायपनंसहाराजारानीप्रदगिंसकसं ॥ साकाविउययानाउ ॥ जिनमिवययानं जुवस्यमवनंवनास्कायसंः वसनं
घसयूनाउ ः संजागहयू ः जाउाघथ्थयायगूक्नेंखाजरासयं ः क्षथनंयिहाउयाउाव्रकाकगूकक्षथमसउानं ॥ विनूयनं ः खनाउ
हाहासयाउ ः उकाकसउानाउ हाथहाहसयाउाविमतियानं ॥ दवियक्ष्वदर्मनारानी ॥ दवनंक्षउाजिउा ः संजागयानं ः जिराग्यं
क्लिजरागक्लिखानस्वयमत्रयोमहंउायासहक्लिनस्वउाजिखनाक्षयमन ॥ थनखहनानमंसंक्षायायाउ ः उास्हकावनयाक्षने ः

अस्वयावयासहूहूक्कोवनस्मनउयासफांगवाक्वत्रन्थर्यिमावमा॥दमदमंनवत्रमययानाउरुकिईयाडाउयाथनवोनस
मह्नूनिःस्कानक्षवसाकैस्वासस्वसेयरवनाज्जिऊनिग्यकक्कैस्वासस्वयंममउ,जिस्वासक्कनमयउाजिऊसानयमम्वासा॥पयंउवक्कव
र्लिथिंवाजाहूयाख्वाणिंयाकासहूयाउमिमवदवहूयाधानक्कस्वरवक्कआहूनूमिमाक्कक्कस्याकावलं,धर्मकिर्लिजसमस्वसमक्कंमावमा ४१
उाःहूवदमसत्रमयानाउसःक्कसयासयाउन्मग्निकावःसाकयिस्यंसिवसा,वीवक्कमवाजाधिकावधकेंनिंद्वायायूःथर्थिअयमान
स्वयाउःस्वधेथ्वजिवक्षवनायाय॥थ्वमनाहावयाउ॥क्रजासाकप्रनिपासयायमस्वस्वहागयायम,थउावाक्षयिहांहूउारक्षस्यसि॥
अनिसिनहूनवीवक्कमंक्षवःसाप्रियमहावानीःक्कविनानसिहांउनमघू,पनिवकारवनसंजिमावनसवःथधेमयमवःहूवाव
नधेःअहूमीवृनयायहावयाउविनांमकिमदयकेक्कयायंममउसहूनूपहूयकाममायानाःअहूमीउयासनायायहूयार
कामिदमउसःहप्रियमहावाजामहानानीःहूउयसाउःपवंउसवकेस्यनेहवायायूनिदायासा॥क्कनममावममघूःथ्वमक्षस्यं
सिःअसकप्रकावववूउयपाकसाजिमनसःवसमहूयाजिकअसानयमम्वाव,क्कनत्रमयायमानसाःममक्किमवाजाकेन्यापि
विवाहयानाउवृनयाहूसःपवंउनिमयनजिमउया्षस्याःवीवक्कमनहकववथ्वमनीप्रकाववंमिनहप्रिमिनवूडुयमहूसाना
गपामंथिनावबास्काननहूउनूयाउयनःक्कवनूयायवाक्रमस्वयःक्कनक्कयायिउक्षस्यसिःस्वदर्मनायानिक्षयंववास्कावंमहूंकावे
नःआस्यासथ्वयाइप्रासयागयायहूवंजि॥पूनवीववीवक्कमक्षवेःआमथ्वप्रानहथ्वयानसाउस्नसाकसननवकेवासहूयाहृवस्वसा

गयायमा। त्रिज्ञाया स्तुरु थ्वसहायाव, थ्वगताति मिलं नवाद विवादयाङ स्वर्गसुख भ्रष्ट जुयाव। नायंक्व जुडपा मन्नाधर्म्मकर्म्मयाय
निम्ह स्वर्ग्गश्वाहन तद्याउ आदि व्याम नहा गयाव, थ्व प्रकारं इन्द्र उयया गस्ता सानं सुदर्शनाक उयम तद्याउ गजा याखा तनायम स्येस्ले थन
थ्वनसमग द्रुन खाव स्वयस्त गिग्मक: पितांहूथयाङ्गवसन स॥ सखीक्रन्त ध्यन कसउ असा॥ निर्म्मस्त्रमूकथानं सुदर्शनाया नी, सजी
वायाउ: पिहांवयाउ: थ्वउकुथ्वसथ्वान जनं, थ्वन सखीनं इनाउ हाम सा वानी॥ विदूषक किर्इ स्त्र उजनदयकलजि मिस्यनथ्वाव
वानों कस्वयाउ अद्भूलपान नमवाव: जउकुलपावयाकु थ्वसन्त्रकांन ह्या कुन्तुउ कुकावसकुवपाव यास यम हुवसाजियानिस
नथ्वा सज्ञा दिन याय मद्रूश्मस्यं सि॥ सुदर्शनास्हेयं केयोनं वानीं हाहादेव र हत गवानध याउ, उसुकावकमाउ ख्वा वखिउकाव

जुक्षेमृख्वयानाउ सुद्रव मूकथानं हावाप्तूविनाग सखीनं हानसियाउ: नूफनं श्वानां थनां सिविनूप सुवाय सदाया थ्यंयाकुयाना
उ गजायाग हाजनयाग काउ त्रिउ ययास्यंवानं॥ कायांनवस म नं सफेदांवह्या: हगासवाया: थउ मामफ्सिं दावानी, हुमव(
यांजिमाम जुस्तमीउयासनथ्वानवा, सथ्वानवाख्वसमवाव स्तुमद्र: जिकर्लिवंसमसुयायथूनं॥ वाजाद्रूउ ययायथूनं॥ सुदर्शनि
कूउयम हुउथ्वनमाप्रकावनं, जुस्तमीयाउयासनायाप्रलावं: थ्वकुनाउयकावदनिसयावानावसस॥ ॥ हाकिंद्रयाउजुमा
स्वजनउासवकांनयास जुस्तमीयाप्रसादवियाहवं, वाक्षयासमवावसमस्वकेनं जुस्तमीयाप्रलावननामसंस्यं सुदर्शनासंगमहु
याउ सुव्रयहु यूथकं पुत्रवियाहवं॥ पत्रस्वयाउरूर्षयानं: जुमानयामसि वावाप्रसाद वियायत्र वियाउ सिकायाहवं॥ थनंसिकु

कृयादिनसकुसकुराजायनिसनसमवावसियाउरायाः विनूपयाकावनस सुदर्शनारानी। वीरकृमराजा मावनाथ उकसिसाउनं
। वीरकृमकृमराजा थवसा सुदर्शनाया। विवहनदमसागगयानं॥ कृमडुसराजा कृवं ःजाउ सुदर्शनायाउर्जानवथर्ष राधकं
जिनिनजमारगनयनिसननसमवावसियाउकाति २ हृनकायादवेरामसराजाउमडुक॥ रूनमिमहाराजां सुदर्शनारानी। विवाहनि
मिलिनकानादवपुसनकृयमाउधकंजोनवथर्षयायमनडामसराजो वोक्षस्या ले। मडुकराजा धावं आमकृखकुनाः वीरकृमराजायात ४३
कन्यादान। वियानया। सुदर्शनागःथ्वविवाहयायधावः आमराजाउस्मेलकवसा। सवयकवसाः कृकृनकृहउः कृकावनक्षस्यं सिहनप
निसंविमनियानं। उवसवमाययायमाव॥ हमहाराजाजियनिसनविमनियाय॥ सुदर्शनारानी वीरकृमराजा विवयखनानिहृ

हृयाहुँउवः वीरकृमराजा विवहनदमसागयानाउउनं॥ थवमनसुदर्शनायाउर्जानकुकमसायायाउ। विमनियाहुँदवपुसनकृ
यमाव क्षस्यंलि॥ महाराजां धावं उनकपुकावनंकवसा विधवाकृ सहां॥ द्वितीयविवाहकृ साधर्मिकुलावाव मडुक्षसंकृनयानि। नि
यासायाहुं सिहोउनाउराजाराजास कउलनाविया। थवनेराजायनिसकेथनिवासायाहुँयानं। थवनं सिहृर्मनिराजा कुकसनकव
वसुदर्शनादवनयायरावयाउमवकृकराजायनिसकहृनकायाउवकृयचानाउउ थयहृयानायमीवचैयहृया॥ सवःकिसि॥ वथःव
यायकः हथ्याहावनयावयाहुँ उनकर्ण संन्यसाकनसहितयाहुँउःहमावउयाउः कनाकृकुदमयावाहितिसमहावनसवायाना हा
हाकावयाहुँयानं॥ थवनं सिहर्मनिराजाः चैंयत्रवियाहृमकानं। किसा सुदर्शनारानीमावनकाविउ। किनाक्षमावनकाविउ। किसावनं

गनस्त विष्काह्वनि: कियूहू यायउ ध‍र्कं पत्र वियाक्कानं॥ ॥मडक वाजांपत्र स्वयान मवायायपत्र समनज्रक्कपूवसउनां॥ ह्नदर्गनां
साकं वानाउ भावं: ज्रवयायिह्नपूत्रीक्कं निमिहिथ थिंगूज्रव क्काहस॥ धूकियाउ यायक्कगामात्रदन जिंदूडययायधून: ज्याउक्कूगू, भ
नीवय्या लाहस यियाउ॥ यरू सय्यक्मस्त याम: क्कनक्कग्वक्कमयान॥ ग्वाथक्कगदक्कक्मयानं॥ दिद्भ्रक्कक्मयान॥ थगंगाप्रकावनन्क्कसक्क
वाजापनिगक्क त्यादानयायमाव: ज्रवह्र्मनिपूत्री थउह्लवाक्कायनयावहूडभास्यं सि॥ ह्नदर्गनां नमवायाउनयावह्नयामामयाक
भावं॥ हामामक्कउजिउवायमाव वाह्नयाज्राह्माउलजिकावनमस्त भकक्कायमगंपवउ विस्तमवनयायमहूसा: जिगूविज्राहिकयाउ
॥उड्डानमध्नवाउगि॥ थयादउनक्कं ग्निकावथयागह्वानमायिनाउगि॥ थह्वानयवमभ्वनय्यानवठायययानाउ॥ जिस्वर्गक्कायमाव ४४

थनप्रकावनः जिकसालमनक्कमावजिः नयावह्नयथून: थकंथास्यंसिमहूवानीमहयायमहूयाउ॥ हाहार्दवथकं थायाउमहूक्कांहू
यावानं॥ थ्वनंविनानाप्रकावंवियपयानाः कूपास्वाया नूगववाया स्तववहूनाहूमिस्तगयग्वउसाउपासं॥ ह्नदर्गनानानीवूडयया
नांकूडयमहूयाउमननक्वानयाजिमनसः दर्वयानामामयामनस, महाविनापस्तहयायमहूयाः साग्यायापूउहापाउ॥ थनकाव
नस: यहलयूकियायेमाव: सायाह्नदर्गनानानीविनूपसवावहूयाक्क, उंकाकनापनीगोउयवनसलाकपूयाउविमनियानं, १
लीप्रहमहावाजजिकंसिनहप्रीनिमायादगसा: जिमामहूवयानाक्कसमक्कंवज्रायायमाव: जिकमायाहूमहूथनस्वयथास्यंसि
ज्राहादयकवं: क्कन क्कमायानयाउदक्कवाक्कनिर्मयायाहउया: थवनदनजिउयाक्कं नूसमवावहनाः क्कगूल्वासस्वयहूना

सत्वाया थ्वना। कुमनसा वा वाका मूलाजि कमायामनन्ह॥ थथे याये दिनस हृदुः स्वद्रवः हृसयक्षसधकं आसंसिः सकवसनवा
यकनं। ॥ विनूपनाजा थ्व वंसत्य नं जिवसासवानसा; अमस्यजिनं वा मयाय॥ अथ्वनं म्हीउनयाविध्वसमहं सत्वाथ्वनि
याय थ्व संसि; स्वदर्णनावानीसमयान॥ पृथ्वीसत्व; आपसत्व; अग्निसत्व; त्रिवसत्व; थ्वकं सानमायययानाउ; कुसयासयासी
जिइ सथ्वकं थयाउ॥ ॥ थ्वराविज्ञवसवस, मामयानूगवमस्किनाउ, मावउयाथ्वसस, विनूपस्वावउनाय थ्वनस्वयाउमाव ४७
विनूपरु किर्तिउरवद्धनारूवाउ॥ शउनायंस्वावमसत्व; तुवमठनं; ह्मपांसवायकानयं, थनीयादिससिनहयानांहूवाउ, थ
उसंगमीनांवाइयाद्दः स्वद्वयूथ्वसंसि॥ स्वदर्णनावानीयसीनायवाया; मिस्वांस्वलिनयाउ, विमगियानेंहृमानाजिगुमानिह्नयाउअ
या

पकावयानास्वउ, थनियादिनसउयकावयायिस्कथ्वक्मा विनूपरस्वउ हृमाना थ्वक्वा हूमसावाउाया; पृत्रवीवहूणनामसहावाउा
थ्वरवउ, मसावीवयवाक्षमीवक्षवस्तिसिकवगनननयावागन; मरूत्रुनापियवंतु थथिंमसावितूपयाकावलसजिं निर्मायायाद्दंउया
कामिदंमयासमवावसमल्लकना॥ माद्वाञ्ज सिंदावानीथ्विवतुवंः महावाजाथ्विवीवप्रनायी; रूपनिजिसाजनजिकमायामया
उ, थनयुकावंत्रसययाद्दः हूवञ्जाउहूयाय; उसयामननसींवान; उसथासंसंद्दि जिवजाउायाथीउ; निलयहूवथ्वसंसि॥ ॥मा१
मनथ्वाव, आमस्वसयनस्वउवाः मयद्वनाथ्वसयाविः सत्वनंस्वउहामानाद्दनासवायमन॥ विनूपयाकावनसजकजिनंकुसयया नामात्र
याना, निम्वयनेवाहं, जिकन्यादानयाद्दं वियाक्क॥ जिप्रहृस्वामिस्वउहजननीथ्वकं। थ्वस्वनाउस्वर्णावानीयसमयाउ, पमावहृ
ह१

याओ, सद्दक राजास कविमनियागं ॥ त्रप्रहम महाराजा हयवायमन, सं दस्कायम न्हावउयाय, यल्ल सिद्ध हव ॥ जिजी हागनं यरम न्ह
या हयान जि राज नवीरबद्र न महाराजा थन विश्वा कजिन सियक्षन क्षसं विमहाराजा ञ्कुपहावहृया भावं । ग्वन्हा वीरबद्र न वद्भव लिमि
हाराज । विनां वसुवंगवसमदयकंगनवी श्राय पूजन कयुक्काननं विमनि, निमं त्रनायासों । विश्वा कथद्रून्ह प्रजा हाकमओ सम्बुकांगस्त्न
नेमसियक श्रयथेओ । यिओ ॥ ग्वन्हसया वोष्ठयाग यं दह मी कंपमानहयूं ; थन्ह वीरबद्रन महाराजा ओजाविहं सद्ः ग्वन्हसयाव मास छ ४९
द्रु, ग्वन्हसयाम्हहृमीडपासयानाओ, पृथ्वाजि हयया गं सकल सम न स्ववापूर्ण हयाओ ; थविन्ह वीरबद्रन महाराजा श्रान थनओ यूओ भासं द
विमहाराजनी विमनियागं, त्रप्रहम महाराज थन विश्वानाथान निष्ठयनं सस्यनं खओ, ञ्कुपहावहृयसमग ध कंथयाओ हसमस्ते हृताक

खकनाश्वयं । हस्वामिकु सपासयास्ववानयाढं नयाश्च विद्वयस्कि र्ईः ; थश्च कुसपासयाजिराजनखओ भासंनि ॥ महाराजाम्हश्रीहृया
र्श्वियानाओ क्षसं विदूयविवारमयास्यव कुवलिजि कहानयाओ कन्यादान वियाहाहास्वदर्शनायाविनस, थविंश्च पूर्वयाकंगथे
सिनहगय. धन्यरजि कन्या थविं विदूययाकानन सविजागह्याओस ॥ हनं ओसयाहस्तसं ; हागञ्कुपकं ; ञ्कुपमान यानाजा ओकुमा
प्रसन्नयापूर्वाखहानयाओ, सद्दक राजानं वीरबद्रगः ; जि हाजनयाकओना ; नानायुक्कावस्तुगन्ध, धूप, पूर्णद्यनकावस, विजयमानछ
लं, ध्वजा कुत्रयगाय, मंगसवस्तु किंकिनीजासछत्राहि ॥ स्ववर्णयासिंहासन नयासयाढंम्हसकुथमसाविश्वावकाओसिंहासनसविश्वा
कोओ थमनस्ह मिलासाश्वासनयानाओ, हाग हाजासयाओ विमनियागं ॥ हाम हाराजा भिनाउ वीरबद्रकुवलि नाजा ॥ श्वयनाथकुमा

यास्यं प्रसन्न जुयमाव कुमारपालस थ्व पिंगु ज्ञयवस्तां द्वयु धर्कसक प्रसं, मतावया: पर्वतु कुमारपालयाज्ञा जुल। सियमसवदायया छु पूजा द्रिमंत्रि
नि क्रमसया देस कन्यादान याना द्वया याय वंतु ॥ श्व इनि द्वमि मिसस देश नायाया थकनं थ पिंगु ज्ञयवक्ता जुला क्रमसया सस न, श्री जुलमदयद्
थनना जय वाधसमस्त्रजुमायादं प्रसन्न जुयमाव जियनिसन, जयनाधया नाम ह्यवंतु जिमहाराज्य कुलेजन्मे जुयासाह स्पेजुलं
कुलपविन जुल जि राजनं पनायनस्पविरगवान विक्रम कथं ॥ उमकिंन्नय राजानं स्व धननाज जुमाव विक्रमनादसर्वयाथ्येद्वर्ध
जुयाथ्यन प्रकानं विमकियाकरव छु नोज ॥ वीरजुमवाजाज्ञानं जुसिजुयाज कुमनधावमहानिमीसक्रम्सं नयाद्: मानं द्विमहनाध
नी ॥ नज धनयाधन जुलं मान यायगुलि, श्रीदनयायगुविध्वनं सि, वीरजुमगंजाझ्जादयका द्गान जुवाजुमहाराजज्ञाम थ्यं श्राद्ध

५१

दय कजय याजनवाक्रवातुव पव ऊनजस्वऊनज क्रायंवातुन जुलं। पर्वतु जिराज्यन कुमारपालमसवराना, थपिंक्ष जिवी जुय
याकस्त नानं गयक्रनंकन्यादानविपूरव, थ्यं कोवलस कुमारपाल कंसवनयाय, निर्तयाजि जुल निंद्याजुयमगथ मनाकरव छुजे नो ॥
मउकनाजा विमकियानं: श्रीज क्रायांस्व गंधजलनमानयानाज: दद्व वक्रनपूनाज ॥ यें वगव मानाज: दविजुयाज श्री
गमसानित्यकर्म यानाज, श्रीसंकासंकियाजाजिजनायरोजनमायप्रसन्न जुयमाव धयाज। सकनाजात्यया नाविर ॥
थनं सि वीर जुमनाजांद्व गंधमलनलयनायाछं द्व गंधज समनी नानयाना, कमकर्म, द्वासि कायकार्ययगव द्व याना
दयिवस्लं पूना: श्रीगमसानित्य पूजायादं मत्सराजा महाराजनी ॥ द्वदमनानानी नायं राजनयाय ॥ थनासि सता सविक्रमवकाजाज

नकप्रकारनक वि लाय थयया का: गीनगाअयया का, प्यासूनहू यकाअ: नानाप्रुका य लमनउ स्ताहयागं॥ थापिंज्ञ वसव सम
लाकल्ला सम्भद्उ थयहृयाअ॥ बीरकू मवाजां ज्ञाज्ञ दयकये॥ शाम हा बाज स्वाहृ थ माद्द वाह्ला लहूयाक्षस्यं: स्वनापूचायाअढ्क
सम्क वाजाय निसमवाय कनाअ यप्रुक्कनं॥ बीरकू ममहा वाजां क्षयं ला वाद्दैहृ लय बायमप्याय धं दोकायम गस्ट खनं विद्याकू नि
सिंहयाथ सजं हू कहावांकू चाअ थय निक्क सम्क वाजायीं कू लपासया दांस्यनाअ॥ वमास हयाअ विय कू लपासयाम नस्ट वाह्लसाक ५८
न्यायनिकयाअ विय थयाअ॥ वला कयाअ: मनमलाय यलसँ ग्रामयामा। नियकू सं हा यहृयू। जिह्ल संज्ञ हिं सक: दमाद्द मल गामगाअ।
अस्ह मीउया सनाया कक्क: ज्ञाअग। थयाय, थथ्यं मनसं हू याअ॥ मउकु नी मकु क्षजा सयाया अप्रुनिस वाया गृसम कृक्का लामा लाक्ष

वनीस्वायाअ: धुजा वायकाअ: वतुनेगस हिनयाढ गजामियमि: किसिगयाअ: धनुष: व लाक्षन: नवबाल॥ ढनाअनुकाकीप्र
स्कानयास्यं अन॥ क्षकावायकाअ: पिंहाअयाअ, समकवयासंख्वस: हूवा ढाअ: सिंह नादयाढ हस्कावविया: ऊप्रियय निक्क
सम्क: वाहाउनि: सिंगस्ददनयानाअ: वधूक्षा गाढनय॥ ॥बीरकू मवाजाक्षसिअला: कूयनि ज्ञानगावी हृयाअ॥ जिथिंक्कया
काविययानाअअनं॥ थूविस्वढनाअ: सकसस: न्यसाक: लागययाढ विस्वअन: क्रुसक्क वाजामिसयहृयाअसंमनयाढ: ज्ञाथ
थियखअ॥ बीरकू मथ्यनकवअन रुकिहृयाअ दमा ल्यागयानाअ: अनक्षअढनाअ: ज्ञाअग थयायमर्क॥ बीरवकु वलिखअ
धकंसंमनयानाअ: लयवायाअ: हथ्यहाव गासकाअ: मवनअन॥ मउकवक्षयया गं हाथहाऊ लयाअ: ऊमाप्रसनहृयमा
मि

र धर्मं विसर्जियाव॥ ॥वीरकुश राजान: लव सःजाङा गम्व लयाय: अजा गपलाव याङा जुयरा धर्ममायादं; श्राद्धादय कर
हजुग्रियजन सयबायमद्वास: कुमायायधून: पचुड: तिलमसल: मडक राजायासवायायमास॥ थ्वनयाजसाकूयनिकस्यान
कुयिजा धास्यंसि॥ जोरोय निसन धालं॥ लामहा राजाधिराज, नथालकू लपा लया: श्राद्धथेयाय: मडक राजायासवायायसः न
यावकू याश्चगूहनाङा॥ वीरकुश राजार्सन्य लाकसहित। कुसक राजान: अगिहर्वयानाङा: राजायनि नजादवयाना आसनस वि
ध्याकसः राजाय निस्यन, वीरकुशमहाराजा राजाश्लोथं, मडक राजायावचनस लाकलापूयाङा, वलाकयाङा, थङा रजासनस वा
नाङा: नानाप्रकारं कूवि, हासयानाङा: पाहनायाम। थनसि वीरकुशमहाराजान: थ्वसूलयाकमाया, हमहाराजाधिराज॥ थ्वयनी ४९

कुसक राजा लवनङायाङा, थनन जुयरा धर्ममायास्यं प्रसन्न हृयमाव: कुलपायोरै आह्मामानयया नं: लवलयाकाव लस वीर
सर्वदराजासन स्वलवीरदानयानंरा कुनउद्धारयानं: यचुड हवाहु: कुलपालया: कुसक, कन्या वियाङा जिलाउनयानाङा
सिंजभयावकाङा: विज्ञाहूनिधास्यसि॥ मडक राजा: नह्लथे धर्मनयावयानाङा, शुभदिनसजथा विधिन उक्छ आदियानाङा कन्या
दानयानाङा: थनराजायनिस्यन विसर्जियाना॥ जुयरा धर्ममायायमाव, प्रसन्न हृयमास: सदाकाल सेवायाय: कुलयालया क
॥आज्ञाथजदमनिहंजनश्चयाङा: वलाकयाङा: स्वस्वपत्नीसहितं: स्वस्वराज्याविहांङानहसे: थनंसि वीरकुशमहाराजा: स्वम
नालयपूर्व्वनंमहाराजस्यराक्रमेन प्रकालयानाङा: स्वराज्य सिहांङानलायावलाकालं॥ लामहाराजा वाहआज जिस्वदमङा

गादनथयास्वदभयाविवावसमवावमहः वलाप्रसन्नकृयमावक्षसंवे।मडकवाजांविमानियाम॥गामहावाजामिवाजः स्वामध्यक्ष
हृदयकमगजेहृनंपूत्रमहृभूत्राजेलाजनकूलधास।वाक्षृ तिषके वियाजवाजायाय।जिम्नाथहूलनपावनप्रवेगयायक्षास्वं
सि।जाहृदयकास्वदर्शनायानिमिहिनःमामं,वाक्षगावमाजा,।किजावाजांमाहंजाया॥गादनमामहनासवायुः स्ववस्यमवनंकूवाव
जानक्षस्यंलिःमडकवाजांमवा।विजाहूनिपवंत्रवाजातिषककायाजाविसाहू।नेधयाज,ईवईयावादिननसप्रवेमाजा,हलनगसस
कसप्रजासाकदूत्रादिनकाजिनावाकयाजाःसिंहासननसनयाजजथाविमिथ्यां॥स्वदर्शनावानीकयादानयायथूनकाजा।निम्नकी
हूतूमयानंवाक्षृतिषकवियावाजावानीयाना,पूजासाकसकथावंसाप्रजासाक॥जिलावनयानवाजायायथूना॥जिनधावनप्रवे ४०

वेयायजाथसयाकसवायानाजदिसथयाजप्रजासाकनविमनियाम:नथाहूधकंहमहावाजः स्वाजनिर्शयहूस,वीववक्र
वालियाप्रजाहूसमहानागधवंदर्शनयानाजविहाजनं॥थननिगृविर्किकावस,हूसमसवीवकूमवाजानं:वसाकयाज॥मडकजों
वानस्वाहृदयकयसःजिनधावनप्रवेगयायसमवाथनगुनुवेजामियायमावःपवंजविजाहूनिवकवसाविवाज॥ ॥मजोस
वाजामहावानीयाकथसाकयाजान्नवलसनाकपूयाजा,प्रहानयानाजनं॥थनमडकवाजायूनंहिनमकिर्सयप्रजासाकयानिस
कलवसकसयाजावसनजास॥पवमयवथिथिंकायवयाजःवसाकयाजाजनं॥ ॥थननिस्वदर्शनामहावानीस्ववर्लयास्ववायासस
नयाजःहूजाहनयाजःमहाउस्ताहूनंःमक्तिर्सयचनिसनहिनयाहंःजसंसिजविकनसनेकेधकःसंक्षकाहयाजःमववाजायाय

ञानस: वासयात्ं दूनवाव: सति षुक्र उष्टमीया दिनस: ल उ धनञ्जमाठयस स्वान पृषुविस॥ ह्लानयासजनं॥ थनद मिजनयानाजपू
दुदिस: प्रतिविम्ब क्षयकिया: पुनर्बव: निर्मलजलस: थळ खासयाकिया खंनाज थमनं धोवायाज, मनसरा न पवं जिववाया वीजं थि
काव: जिमामयागर्ह थिकाव गुन विद्यां थिकाव जिजन्म। थिकावं॥ जिस्व दर्मनावानीया भिरवां थिकाव॥ प्रजा साकयां थिकाव॥ जि
थिम्ह विरूपछ्रे साकसं नरूमानरू विद्यति। जिह्नां थिकाव: कवसरू स्यमाछ ह्र्याज॥ थनिया ज्याजनस: कमसकन स्वयमसंयो या ७१
धजाहूय: थमनं मसिया: धन्य र जिस्वदर्मना वानी जि थिंम्ह याक: मायामयाम्ही नहमया: सरुयानां सरुयाय मजिजरव॥ हाहा जि कि
जापनिगथिंम्ह रूप: थनगुकाव नं जा म्लायाकं: थिकावयानाज: कपालदायाज: थथिंगू ज्याघास रूपछ्याज ग्वानाग्वानाया कुंपु

याजनमहू: थनकोननस: थज्ञ गाठजसस्कवानाज: प्राणयोगयाय हायाज: ह्लानयायस: हनस्वद्भ वियधामाज पूर्ववसिस कुरा
जनं॥ थथिंम्ह स्वसव: देववाज ॐ पुर्ण थनकव जयाज॥ साहागठ नाज: थनवाठ रयाज धाव: हामदवाज: चक्रवेर्दि याजाद
याज: श्रम थिंम्ह कर्मयाय: ऋजागप: पर्वतु शाहिनम्ह क्रावलिनाम मजिमाला: काज: मिनसधान ल्याज: रूरूपहूयीज: धयाज॥
सजक्रास्यां विमाज: मिनसधान नायाठं: महाद्वेडवरूपरूयाजक्रोधि रूपमान यास्यं: ॐ नुयाक। विमति यागं: ॐनुनं समा
वी वकनाठजमहायाजा थिवाज कुननामामयार किनगीकरूनामयया कुयान कुउद्यानरूस ग्रामदार्याव ला किंगध्वनस
नहवक्रउ स्दव पूप्रउ मानयायसस्वगर्हवनस विक्षाकं कुनमाम मञ्जु सिद्धनानां वीरूपपूप्रव्रह्र रूपहूयमाय का॥ अष्टमी

थपास नाया ह्निजिक, तनमनं रङ्किया स्यं थानं ; आउ थनियादिन सवित्नुम वाजा हृ वंप्राम खाग याय नया वक्व स : दृष्ट्रुतु क्व
उ नाउ उद्या वया नाउ यमा वं धक क्षा ह्ना दकाउ सादिगद्क्का वलिमा नाउस न्न ह्न याउ हृवा ॥ आउ अह्न नू ह्नयाउ उ धा व ह्न स ; स्व
मसलिमा ना लगङ्खियाउ वृगहूयका भया गह्न सला वाउ क्व नमाम नञ्रह्न मीउ यास नया नानिन्तु नाशयं, क्व वि नूपह्न सञ्जाउ क्व ज१
नमामस्या र कि नउ ह्ना नह्न नाक्व पनि वं भक्ती व ह्न याउ ; अह्नमीयाप्रलाव नथ्रू काञ्जगीनञ्जनागनवूम्हगवानयानिसक
अ, थयाप्रलानंह्न ला ; आउ स्वाम मलिमा नायिकाव सावि नूपह्न ह्नडा ॥ भव नाया नसास्वनूपह्न ह्नउा ॥ हास ह्ना वाजक्व अथालसव
: तुक्राह्नमीव्रनया नाउ : ह्नदर्मनाउ नाय म्हूखलगयानाउथाउ ॥ ॥ थवं आह्नदयकाउ : उह्नन्नस्वर्गविहाविक्षार्गः वीव

नवाजाञ्जनिह्नउ, जमिह्नर्ष या नाउ ह्नवूपह्न याउ ; वूह्नविसह्ना नसध्मयाय धूनकाउ वासयानाथननसउायाउ : ह्नदर्मनाया
कउ नां धाव ॥ ह्नावयावनेस्व नाउ : क्विक यया नजखम हापूवूप क्व गनउ अनगना : आमजं नपु वसम स्लवानियादनह्न : गवक्वंउाव
मह्नक्रू ह्नाउाया ॥ क्रू ह्नक्वा गनयाह्न नां गवंनक्वायाह्नव उ समम ग धस्यं लि ॥ उनपनिसनथवं : वीवक्रू भमह्ना वाजारव उाह्नि कयया
यमगधयाउ : समचाव वूलाक्व कनाउ ॥ ह्नावयावजूयरवाव ह्न याउ जिनमसियाक्व पनि सनसिउ दाय क्वू पनिन वयाउ, र्कांउ कवाया
उ ह्नांगं ॥ थनंसिनुकाकिस्वदर्मनाय नीह्न या थसउना ॥ वपह्नस्वामि वीवक्रू भमाहावाजाडिखउा ॥ ॥ श्री कवू रामम यया क्व यानस्व
वूपह्नव ; जगिवसनक्वू नगजिखावक ब्रस्वउ धस्यं विप्रगिनमह्न याउ हा यचायाखावमाकवू याउसवीजनयाकधवंहस खीजन

श्रीमद्बुद्धयात। थ्वीनो स्यंडा; मन्त्रीप्रहादि जयाव थ्वा न्हाहिडा; यूथु। सियावेस्याक जिपुरुखत्ता मियाह्मान धूनसा थाना हिडा क्षास्यंसि॥
जुमहाराजाया थिजयहूनयायाया डा, स्वहृहूनकि लाडा; जुक्लादयकवजुयाप्रियजिखडा। निश्चयनंखडा २ जिह्मयायायनपकनस्वडा२
धयाडा; स्लाहि गमहृक्षा वसीमाक्व कयाडा विरूपयहृयाक्षनसखीजनयिंकिहुतयायाहमहाराजानीहुपुगीगमहृयाडा क्षावं, जुमायावि
धूवुय; क्ष; दवना, ईश्वना; मवूजुवा॥ वाजुसवा; सुगमहृखडा॥ विरूपयहृयाडा कलययायमडावजिप्रगिप्रमाखडा; थिहांहूनजिप्रहृखा ३२
मिथ्यनकवडायूडा जुमथ्येवानसाजिनक्षयविधरसमयायक्षास्यंसि॥ महाराजाथिहांडयाया डा; डुनसदिगयाडं; डायाडाजनयनि
सनविमगियामं; जुमहाराजानी; सयनंनिश्चयनंखडा; सुसपालयापुरुहृखामि॥ जुमरवडाथकं; पंचप्रकारयासहयानाडा; समा

स्कंदलांकखककन; जुहूमीउयागया; प्रतावनजियनिसनक्कहृयादर्शनयाय; धूनक्षास्यंसि; पंचवाक्षनं; प्रगीगहृयाडा; वनमस
॥ हाकपूयाडा; थनंसिमहाराजामहाराजानी; यसैवेवं; सिमहृप्रीगिनहर्षयानाडा; पूजाध्यादिहाजुनधूनकाडा; प्रस्थानयानं; महाराजा
हनं; स्वरूपहृयाडा; स्थानकृनांकवसवासयाडं; कालीदर्शयासमीपसथ्यनकवडाने॥ पनहूगहूमवाजाप्रहृगिक्षमावपनिसकस
हूमहिगपक्तिजुमामप्रजाजुनमहकन; नैवेद्यवाआपूर्हघटधूप, आदिकयावहृयाडा; सम्पडासः; दर्शनयानाडा॥ स्वदर्शनावानीख
नाडा प्रगिगहृयाडा॥ स्वरूपनाजाखनाडा; जुयथावहृवं॥ गवक्षयनंधांक्षावंहकिहृयाडाजानंवाजा, गवक्षासनक्षावंहूगवाजाहृगका
डामववाजाजाव; गवक्षसनंमलिमालायावहूलाकेकन; थ्यनप्रकारलकेलासनवाजाहूसगदहांजानं॥ स्वदर्शनावानीसंपकस

सिंदाम हाया। नियाक्व ओनाओव्वलसहाकहूयाश। विमनियान। हमानाहुसपालयाधर्म्मन अष्टमीयाप्रमवन॥ श्रीकहू सामय
यादयानस्व दर्भनासंगमहूयाओ। श्रीलवययहूस थममाप्रकायसरू किंईयागस्व फसादिसमस्र कृहींन्क खकनं। स्वदर्भना
यानीहू नंखओमक क्षस्यंओनयनिसनड्रिजिसथन्ध श्रनागयनखओरू सथासयादयानस्वन्वयहूस॥ महायानिहं क्षस्य विज
निकोंतुकयायाओथम २ अष्टमीव्रतथन्धकहू सामयगम्गसयाहूया नउह्यावहूया थकंप्रर्भमयाहं सादिनम्हका वसीमानाया
प्रसावस्वयाओ। स्वन्वयहूयाओ विन्द्रयहूयाओ थनं क्षयं सायाओं नोरूनंमहूओ॥ स्वदर्भना यानीनं क्षव सायास्यंनिन्हू न्हूंमहूओमहा ३४
याजायानिवसीमयाओ ज्ञाह्लादयकारापुत्रमसायाजाभियाजदर्भनसासासविज्ञानाओसकनसाकयाकदर्भनविओक्षयहंनाओ

महायाकोवंदर्भना। विसहूलयहू याज। विन्हूयहूयाओ। हप्रजासाकयानिकन्धहूकहमाड्रिजीसक्षयाओहनाओ॥ प्रजासाक
याहर्षहूयाओज्ञा। भियाविया॥ थनंलिमहायाजानं अष्टमीव्रतयामनिमायाहं ज्ञाह्लादयकारा प्रजासाकेअष्टमी याउयासनाया
ओ क्षस्यं निनथहू थकेज्ञाह्लावसयया हंजनं॥ गुरुआष्टमीहूंस्यं विवीवहूमयाजानंस्वदर्भनासमकजुसिंहायानीप्रस्वखउयास
नाव्रतयानापूर्वाहिनमंत्रिपुमूरवंसकवप्रजासाकेनउयासनाव्रतयाना॥ थममाप्रकावं गुरुआष्टमीप्र निंब्रकउयासनायाम।
। । श्रीमहार्य्यावसाकिमथवप्रसन्नहूयाओ। कालिकेगुरुआष्टमीकृष्णव्रतयाजवसवसदर्भनवियाओविज्ञानं॥ ।
ज्ञाकामर्मार्गविज्ञानाओज्ञाह्लादयकवथम २ वीजाअलिंदाहूयनिजिरक्रिहूओदर्भनवियधून॥ थममाज्ञाह्लाहनाओमहावा

जीनल्हान महाराजस्यांजुस्यांगप्रज्ञामयाउं स्त्रोत्रयानं॥ ॥नमः॥ श्रीमदार्यावलोकितेश्वराय॥ लोकेश्वरं लोकनाथं लोका

लोकैकरत्नं रत्नं॥ लोकपूज्यं लोकवन्द्यं लोकालोकगगनं नमः॥ करुणामयं कारुणिकं कार्यसिद्धिकरं करं। कामनाधिकवरदं वं न

मामि स्मितानना यकं॥ यथायथाय थं भयाद् ध्यानस्थान यथास्थथा॥ प्राविलदुर्भमप्रतुलं तन्त्र स्त्रीगर्भवनं नमः॥ ॥नमामि त्रय ७७

यायत्रियय थं मिह्नजुस्याल्सोरवावनी प्रणयनं नमामि निरयदायकं॥ महाकारुणिकं मन्त्रमञ्जुलरूपं महागर्भमायामायाम

गर्भमायाम्त न गर्भं नमः॥ सर्वकाळ्यमिदं स्त्रोत्रयथं मितं किनानमोया॥ यं वानं कत्वा निर्मुक्ताः सोवनी प्रयांतिमि॥ थनप्रकोव

स्तोत्रया हंसकविधान पूजायाना ज्या धर्म्मयाज्यानं॥ श्रीकरुणामयनजाह्लादयका: दताकिञनमज्ञधनहाकियायु रतावनहवी

ज्वकुमज स्वज स्वानव संप्रनयाजा कथं थदानवुनघाह्याव मित्राप्रनघहुयानाजाकावांनवस्यचनथ्ययनकावस भाक्कम्हलिन

थागनहरा॥ थन ज्याह्लादयका विश्वरूपदर्शनविवं॥ थनं विधीकरुणामयपवमथ्वन: ज्याकानसविष्यानादिरुज म्हकिंथावल्स

याहं सहप्रदसय भ ज्ञासनयाना पश्चनावयवदान विवंञ मिनारामित्रसमयाव ह्याभदयाज॥ चतुर्द्दिजचतुर्द्दिक्लिअह्रद्रजजादि

भानमेह्ददजसहप्रदरऊपर्याकृ विश्वरूप हयाजा दर्शन वियाजाजुकु ध्यानहयाविर्याजनं॥ थनं सिप्रजा लाकया महाराजानं नुहुंः रव

दाविडनाभहयाजासकवयांमनवांक्षा पूर्णह्याहं प्रनयवंथिथिंड्यांवहयाजादिनयाहं वान॥ थनं विवीवहूभयाजायाउयवा

समधवकूभधवकनामपूप्रऊस्महयाजा॥ थयानवाष्याह्निवकविमाजा सकवप्रजा लाककायववयाजा जूसिंदा महावानी स्वदर्भना

यानीस्वं मंमधाव न प्रथम याम॥ अष्टमी याछिन उपास याइ श्री ३ कृष्ण सम्पयया नां मं नयनय ध्यानं हृमवयाउ॥ पुनर्वार वकाव
हूस्यं सि स्वर्गलोकन विमान स्व नहयाउ, स्वर्ग स्वर्गस याद नं ह्याद व लोक पनि सन हूमियाव काउ गंधर्वन वाय थकाउं॥ किन्न
व लोकन गीत याउ यया व काउ॥ सिद्ध लोकन गान थाव काउ॥ थ्व नम प्रकावन न्त्रादय नाउ यानां उस्व यें गंन॥ थ्वनं सि दव
याउ ष्ठन्द्र स्वन्ह द्वन द्धिवाउ, ब्राह्मादय को मह वाज विरूपयाकाव नम प्रालय्याग याय, न याव हू उआ अम हास्व व
ह्रल: लो क्रिम हूक्त व लोमाला, गनन याउ याम याउ कि पूर्व उम यास कु सयाम स उ कु नाउया॥ अगा श्री जा यांव लोकि गन्धव
गन भ्रमस्यं सि स्वर्ग व गीस विज्ञान यो क्षेद नाउ॥ पुनर्वार देवताउ ष्ठन्द्र ध्याव ह्रउय वास पूर्व दव पूत्र, थ्वय निस्व क्रौ हू जया

अधय योअ स्वान मालो स्नायाउ जम दन सं व्व व्व दियाव को दिव हाजन याव काउ स्वर्ग वास याइ दन॥ थ्व न्त्रुलि कि
प्रजा लोकका नम्ह हेउ, वकु वाहि वाजा मलु: गुसिं देवता पूत्र हूल म सि स्वर्ग वा गी थवं, गु शिंमा कु हूसं॥ गु वि न था
गन हूलो॥ य विं नि हु हूसं॥ गु सिंधा क्षि सत्व हूलो॥ य सि प्रत्य कपू ह्र हूलो॥ थ्व कथं प्रकाव ननं थउ काम्ह नान प्रदवि ज्ञान॥ ॥
उपवास कून या ज्ञान अष्टमी उयास याइ सकन प्रजा लोक प्रमियाव याना उवजा खियाक हूलं॥ ॥ थ्व सि दियाव दाना
हूना अष्टमी माहात्म्य विवकूल वदानं समाप्त॥ ॥ ॥ संवत् ७७४ मिति माघ कृष्ण त्रयोदसि॥ वृहस्पति वार थ्व दि
न्हु सिधयका हूलं॥ ० ॥ श्री श्री जवनत्र वर्ष ह्म नयां श्री धनराज नथाया हूलं॥ सव्व काया माया दि नियां, तानाउ॥ शुभमस्तु॥

ञा।

करनेगु विद्याहार्ग थ्वमखि कथ जनायाचुन्धनं, शुद्ध साक स्वखि, यव साक माजुग विरयि ॥ द्वत्र कीमनायान साहि
धतु सा॥ स्वथं बाजु मध्यं वाममद्वावखनयिम॥ सर्वदारनु॥ ॥ श्री ॥ शुभ ॥

ञेग

आसा अभिलेखालय
177 | 1
ASA ARCHIVES

[illegible]

177	I

[illegible]